


For Reference See Pages: 364, 366, 404, 406.
For page numbers, see the page footer. Page numbers are in 'Page x of y' format


realpatidar.com
realpatidar.com


realpatidar.com
realpatidar.com

२२७ होवमुजानेसमलखउरखेला॥
[illegible]

६

६	जोइए नूरनाजु जनमजु छे:
५४	जोटा नूरनाजानी आआअत
७६	नूरनाजु अआरथा जनमजु छे:
८४	नूरनाजानी आआअत:
९९	नूरनाजु दधोकारी जनमजु छे:
१०३	दीपाजआने करीअनी:
१०९	दीपाजआने दीपथापनानी:
११३	दीपाजआने तोआकरानी:
११४	दीपाजआने आआग्रआपनानी:
११८	दीपाजआने पाटआकपानी
११९	दीपापाटआकीनेअरदीकरपा
१२०	दीपापाटिपरआआजुकपा:
१२३	दीपापईआजुकपानी छे:
१२५	दीपापाटिपईआजुकानेआदानी:
१२६	दीपाकआअने तोआनकरपानी
१२७	दीपानी तीकनेपरनाजकरनी

२१

१९८ दीपाअलीजाअरजामेंधाजननां

१८२ दीपात्रीजपाणीआरनेधाजनां:

१८७ दीपाओधीआकतीनेधाजनां:

१९८ दीपापायजारमोआरनेधाजन

२०१ दीपाजपनेजाणलोद्यानीछे

२०८ दीपाजपनेधनाज्ञितारानांछे:

२१३ दीपाजपनेधनाज्ञितारानां:

२१८ दीपाजपनेधनाज्ञितारानां:

दी [illegible]

२३७ दीपाजपनेपलोअपतआयुनां

२४२ दीपाअलीजाईकुमपुनांछे:

२४५ दीपाजपनेत्रीजीदुआनां।

२४९ दीपाओधीनरोजआयुनां:

२५४ दीपापायजारपीरकलनां

२५९ दीपाधज्ञिठाआघोजपनां

१५४ दीपाआतजीपापनआरनां:

२९२ [illegible]

२९४ [illegible]

२९५ [illegible]

२९० [illegible]

२९४ [illegible]

२९७ [illegible]

[illegible]

२९८ [illegible]

२९९ [illegible]

३०० [illegible]

३०१ [illegible]

३०२ [illegible]

३०५ [illegible]

३०८ [illegible]

३०९ [illegible]

3

३११ [illegible]

३१२ [illegible]

३१४ [illegible]

३१५ [illegible]

३१७ [illegible]

३२२ [illegible]

३२७ [illegible]

३२८ [illegible]

142॥

[illegible]

[illegible]

॥२॥

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

તીનામથીં કુમામાયકો:
આપાહે નૂર પેદા કીધુ છે
:સાચેલઅપરાધેલ:તમે
સોણો તે તમારા આગ
મ:તે પાતનૂરે આન
કરી છે:તેમાં હાતાબા
એ પોતાના:નૂર નાતા
રી પાક કીધી છે:તેતમે એ
આદરાયમાં:તારે મેહે
લનપરાધેલએ કે નૂર
તેરહા છે:તારે તે હાનૂ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

जेहत वजयरखेते अला
जपा ल्हा छे: ते आ ले कम
अलो मः तो पत पत पता ल
मा: ए पो अमर मा नो छे
: पत्ता अो द्वाता लो ए: अ
पत तो छे ने पे दा क्रा हू छे
: ते नूर अर पे अमा हू छे: ता
ता नूर अर पे अमा हू छे:
ता रे अो द्वाता लो नूप रमा
न आ पू छे: ते ए नूर मा दा
: ए हो अद्वार मारा: ए जेहत

[illegible]

પેદા કીધા છે:॥૩॥ ચોથો
ફરીશ્તા: હિમતનો પે
દા કીધા છે:॥૪॥ પાંચમો
ફરીશ્તા: અકલનો પે
દા કીધા છે:॥૫॥ છઠો ફરી
શ્તા: ખૈરનો પેદા કીધા
છે:॥૬॥ સાતમો ફરીશ્
તા: અમરનો પેદા કીધા
છે:॥૭॥ આઠમો ફરીશ્
તા: અસફનો પેદા કીધા
છે:॥૮॥ નવમો ફરીશ્તા:

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

पीपडा छे: तेमाहि पानेर
नवातपेहा कीधा छे: पछ
पनापुतराए हि: आमा
रान्हरना: जमाना आत्म
नोप्पारफजाहि पीपडा
छे: तेमाहे पीपे लेफतर
फाती: नेहि वजवाराछत
पेहा कीधा छे: अनेवाने
फतर फाती: नेहि वनेफाछ
लेपेहा कीधा छे: ॥२॥ पछ
पनापुतराए हि आमारा

नूरनाः [illegible]
प्यारकुं [illegible] थी पड्या छेः ते
मांहेथी पेलो [illegible] तरे [illegible]
जेहेने [illegible] अरा [illegible] पेदा
कीदा छेः ॥१॥ [illegible] तरे
काताः जेहेने [illegible] राखेल
पेदा कीदा छेः ॥२॥ पछे [illegible]
[illegible] तरा [illegible] नूर
नाः [illegible] प्यार
कुंमांहे थी पड्या छेः ते मांहे
थी पेलो [illegible] तरे काताः जेहे

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

नकपेदा कीधा छे: अने अ।
ठमा फुतरा नो: अने ताल
अपलो अ पेदा कीधा [illegible]:
तेहोन फु नेहरपानि पेहे।
छे: पछे पाणी फुतरा अ:
त: अमारा नूरना: ने म
णागा लजो आर फुमाहे
थापडा छे: ॥७॥ तेमाहे
आत: तप फुन पाना पेदा
कीधा छे: पछे पाणी फुत
रा आत अमारा नूर
ना: [illegible]।

[illegible]

realpatidar.com

पडाछे:तेमाहेथायार
पेद·आरफेतेम पेदा
कीधाछे:॥४॥पछे पाक
फतरा अडसठ: अमार।
नूरनाः नमणा॥नाहीं
नापा॥अआगाजीःसे।
पारफमा॥हेथा पडाछे:
तेमाहेथा अडसठ तीर
थ पेदा कीधाछे: पछेन
आफतरे॥ऐक·अमारा
नूरनाः नमणा॥अमा

मायारकुमाहिथापडा
छे:तेमाहिथारेहिणपेदा
कीधीछे।पछेपलाकतरे।
एकु:अमारोनूरनो:
गव्यालमामोव्यारकु
माहिथापडोछे:तेमाए
थाहीपअपेदाकीधोछे
:पछेपलाकतरोएकु:
अमारोनूरनो:नमाणा
पानूमोव्यारकुमाहिथा
पडोछे:तेमाएथामदर

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

कातां : पाए तूफान पेदा की
दा छे : त्रीजे फतरे कातां : ज
नपारनो दीन पेदा कीध
छे : चोथे फतरे कातां : पा
नी असमकार पेदा कीधा
छे : पांचमे फतरे कातां :
रोहोनन कदम पेदा कीध
छे : सूरजअजरा पीननी
पेदा कीधा छे : तेनो धणी
श्री अहमनारनानन सूधी
: ए भाअ ड लोपत कीधो छे

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

:फुल मात मात ना पेहा
कोहाइ: मात मे कतरेका
तोए फलोमने आठक
मार: नहि पेहा कोहोइ
इ: आठ मे कतरेका तो:
मे अ त नालुगडा: मा
त मात ना पेहा कोहाइ
: नो मे कतरेका तो: म
अघोइ मात मात ना पे
हा कोहोइ: ६ अ मे कतरे
का तो: ६ ना आ ना लुग

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

॥२०॥

पन्याण:नानामोटाअरे
वेपेहाकोधाछे:॥१०॥प
छेपमाफतराहुआ:आमा
शानूरना:अनेओयारक
माहिमापडाछे:तेमाछेपे
लेकतरेफातो:आपाअक
लोकपेहाकोधाछे:पाने
कतरेफातो:परनगारा
लोकपेहाकोधाछे:नीने
कतरेफातो:मअतकान
लोकपेहाकोधाछे:मोने

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

॥२१॥

तोक पैदा कीधा छे: ॥२०॥
पछे पाक्ता कतरा हूआ॰ [illegible] ।
रानूरना: [illegible] जोव्पारक
जाहि थापडा छे: तेजाहि था
पेतेक तरे का तो: तेक जात
तोक पैदा कीधा छे: पाते
क तरे का तो: अपूरी तोक
पैदा कीधा छे: [illegible] क तरे
का तो: आतेजान तोक
पैदा कीधा छे: [illegible] त
रे का तो: आहि पान तैरन ।
नाराज तोक पैदा कीधा

realpatidar.com

अलला: आलिपअलल
नेपेदाकीधाछे: ।।१०।। प
छेपनी कुतराहैअ॰ अज ।
रानूरना: पेहिलपजीव ।
रकमाहिथापडाछे: पलि
कुतरेकुलि: अरकनपेदा
कीधाछे: पानेकुतरेकुलि ।
: मेआकुपेदाकीधाछे: ती
नेकुतरेकुलि: अपरनो
अतनापेदाकीधीछे: सो
पेकुतरेकुलि: अजरहना

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

રપરઅલગાજાપૂરષોડુ
છે:અને ફુલજેમ અને દો
કોદ્યો છે: તારે પણીષો
દાતાલાઉ ફરજાપુછે
:ને ઘ્રાફુલજઅરજી
પાડ્યા: તારે ફુલ જે કાર
જિપાડ્યું છે: તારે ફુલ જે પો
તાને જાપુજિપાડી ને: પ્રા
ણ પતાલાને ફુકુ છે: ફે
ઈશ્વાપાફ પરપરદેગા
ર: ઉનાજ ફેને છે: ને શ્રા

पछी नाम: प्यरा प्यरल
आ पोहोछे: तारे पोहोता
लाल फरमा पूछे: फेर
आफलम: ऐ नाम ता:
मामाम दरशलल नूछे
:तेनामन आ पणी पहा
नूफरताता [illegible] मात
पाताल नः आत अस
मानः तथा अरस फोर
आ: लोहाने फलम: पे

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

॥३०॥

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

realpatidar.com

॥३१॥

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

लम: तेतो आमारा पे
रमा छे: तेत जे ए पडी मे
टाढ्या: आजने पे हाकु
हाछे: तारे आजे ए कुला
भते: आ भाहनारप
रआलगत: ते कुल जेल
भा ओ छे: ते कुल जे प
डापना: ते आगाम
पने: मो भजेगात नही
पाएं: ते मारे ए पाकुल
माने: कु ओ भहरे ए क

॥३२॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

तपडापोछे: तारेहजनतर
सुलेलाछे: छेलेजतोरी
तफेताप्य: परस्रता अ
नराछेलेने पडापोछे:
नेछे लेजपडी· नजा आ
फाअपररहाछे: नेअर
अफोरआजुलेछे: तपा
यदूरजूरन यालेछे: औ
जपालोनना: औातपो
तपाछेछे: तनेप्यानना

जुफुतेछे: तेव्यरफुतअरवे
प्याजनामानाछे:तारे
पजानूरमामामदः मूसे
तपमानेफुफुछेजे: फुतर
यार=अजामाना नूरना:मु
हामेआजेव्यारफुजा
ऐपापडाछे: तेजामेपापा
रयानूपेदाकीधीछे:
तेजापेतेफुतरेफाता:
पाएपेदाकाधाछे:॥१॥
पतजेफुतरेफाता: पाएा

पेदा कीधा छे: ॥२॥ त्रीजे कु
तरे फाती: अगान पेदा
कीधा छे: ॥३॥ चोथे कुत
रे फाती: पाणी पेदा की
धा छे: आसमान जमीन
पराबल: अनपाएँ त
ला आ तिपसन लप: त
रे पछे पनाम दातोला
नूपकरमान आपछे:
ऐ नूरमारा: एहा अहा

अहारमारा: ऐसनरत

हवतवमारा: ऐमाहा

मदमास्रूफलमारा: ऐ

रसूलमे हवृवमारा

: ऐसतगोरमः तमारा

मोहोवतमाहे था: आ

मेयारसा मूपेदाका

नी ह्रछे: तमाऐ पाकेव

सी ल ह्रिपर: तमे आल

ती आरधरोछे: तारप

॥३१॥

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

न अलो धः नूर मोहोम
द सो सतपंथानोः पीरा
पढि पर अअ पार छे आ
छेः ते अअ पार पईनेः
पाछे गोष्टि पासे गआ
छेः ताहां न छे ने माहामद
नानूरे कट्टि छेः ने आलो
ले कजने पाछेः ता
रे ना रे कट्टि छेः ने आले
मसताज नूक्रो आग छेः

तारे जाहाजदने नूरे कु
द्रति छे: फेजेनो तूअदो छे
: तेनो ईसमे नूर छे ए:
पण तूफेनो अदो छे रव।
ए: तारे पाए कुद्रति छे: नेए
कु अदो ओदा तालानो तू
छे: तेजए कअदो ओदा
तालानो हुपणा छे द्रि.न।
नूर जाहाजदना: तारे
जाहाजदना नूरे कुद्रति छे:

[illegible]

नूरनाजानहनाःतारेन
नहनानूरेकरूछेःतेम
तेणेएप्यादानेःपोतानू
ननानानूकानकरेःनूने।
प्यापडरेनूपाएेःतोनना।
एप्यादाशोछेःअनेप्यादीना
नूपाएेःआहिप्पनानफ
नपनाःतेकार्यआहिप्प
नेगामेतफरेःप्यादानूफे
पूगाळछेरेपाएेःतारे

पाए कुंछे: ने सोनमा
कुपाए पछे: नो नूरमा
हाजहना: तारे माहाम
हना नूरे कुकुछे: ने पाए
नूतो छपा नेरहो छे: नू
तो सरपे ना एपनूपे छे
:अने तारी एपतो: कोर्ड
नो तो नपा: तो नमाएन
ए पछे रे पाए: तारे पन
पाए कुकुछे: कुतमे पण

गोनेगारछो: ने आजमे
गोनेगारफोछो: नो नूर
माहामहमा: तारे माहा।
महमा नूर फकछो: फे तोफा।
आलो: आमे ते प्पदास।
तेप्पनाफो नेगारछुं:
:मोनमा तोएप्पपछा
छे: माईपण गोनेगार
तोएफ: मोहातालोछे:
तारे माहामहमा नूर

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

णानापातअपूरणछेअन्न

आत्रिजित्रिन्ननपपराई

पःअलपाऐतालाःआ

तैपआलेजःतारेपला

फउमआलाईःनूरमा

हामदनाःपोराम्ह

परआअपारपआछेः

तेआअपार [illegible] नेःपाएता

जोएपाअंगाआछेःता

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

हो खोदाताला नो तुछेः
ते मणे रुप छे खोदाताला
नो रुप पाक छेः नो नूरम
ना जहनाः तरे मा का जह
ना नूर रे नो छेः ने पाक
तो पोताना नो म मान
ए छेः अनमोर आयतमाः
त रुपार ए करे छेः तारेप
मा मा का जहना नूर रे रु
रु छेः ने हना आमाना ए

नः के पूकाज करे छे तुपा
णा: तारे पाणी ए क छे: लो
काहे जारा जनजा आवे
से: कु तो तेकाज करे से: लो ।
नूर जाहा जहुरा: तारे ज
जाहा जहुरा नूर क कु छे: लो
न नोहे एप्पहा ने: पोताने
जनजा नू काज करे: तु ते
प्पा पडरे तुपाणी: तो न ज
ओ प्प दाणा छे: अ ने प्पहा
का सूपा ए: आ हे प्प नाहा

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

रपाणा एकक छे: ने तेप
णगो नेगार छे: ने आज
ने गो नेगार को छे: नो
नूरनाहाजदना: तारेप
लानाहाजदना नूरेकक
छे: के आअतपार तेपा
आला: आजे तेपदाना
हेपना घ नेगार छ छे:
मो लनाए ते एपधणा
छे: नाईपाण गो नेगार ते:
एक सोहातालो छे: तारे

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

अलोअरोफोलेहेः अ
हपनमाहिमाहीनः अ
मदधेरझुहेः एपोक्त
मोपडीनेमोमनथे आ
छेः अनेमाहिमादनाह
नमाः आपाछेः तारेपा
णएपोतानापारः पेगा
मरकमूलकीधाछेः अ
नेपोतेनवानाद्दनतप
थनेरहाछेः एवावाना

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ઉપાકુલ તે જે પડી તેઃ મુમ
નપ આછેઃ અ નેના હાલ
દનાદીનજા આપાછેઃ
તારે અગાને પોતાનાઃ પા
રુપે ગાાખર રુપ ખુલ કીધા
છેઃ પોતેનખાના ત્રિજતઘ
વ્ર જોરહાછેઃ તેના અગા
અગોણના પાતઅ પ્રરણ
પછછેઃ ॥૩॥
આહાજેહાજેહ નવખર
છેઃ અલપાણ તાલા આ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

લલનાવ્હઃ અલલાહ્મા
લેપઅલજના: નોનૂરમા
મામદના: તારેમામામદ
નાનૂરેનોક્રિછે: કેયદાયા।
યતોગારીયછે: આતીજ
નનામારછે: તખામઅત
કીનછે: ॥૩॥ તારેપનીઆ
મામદનાનૂરેકમછે: કે
દના આમાનાળવનો: કેવ
કામકરે એરેતયયાયા

॥५२॥

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

अम फाणि फरिहे: ते मोहा

ताजाणि नी जिहे: ते पाखान

णो हे नी: अनि मा मगाणु

ने तो: कमल कोइ दोहे: ते

तो अपान आमरणगा

कमूलीहे: ते मा मगाणु

ने तो: पोताना करीने रा

खाहे: पणिने कोइ जाण

ता जातहे: ते आयारस्तान

पगारनथी: पाणिपाट्ठा:

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

॥५६॥

[illegible]

[illegible]

॥૫૭॥

આદમ: અગનગોરો ।
ઇવા: અજેઅરણ તથા
અને પેદા કીધા છે: તેને
નો અજારાગનમા આ ।
પગે: તે જે અતવાલગા
દેશ: તો કા અગનમા
... પકરી સૃ: ... નો
કરી આદમ: પાછા ગા
ણા જા હવા: અજે અરણ
: તથા પેદા કીધા છે: તેને
નો અજારાગનમા આ

[illegible]

[illegible]

५ आगळे : नबी जाहाजद
जानूर पेदा : दादा आद
मने पोता छे : दादा आ
दम पेदा : सर्व दने पोता
छे : ते पछी केरा नना आ
वीता : दना आजा परपरी
छे : ते नबी दादा ना ते पम
रजा पे द्ध छे : ने अतरा
पार कु : जाहाजद जो आस
तफार : ते अमने अस लो : ९
वर कत जाहे बसे दाकु

[illegible]

[illegible]

realpatidar.com

[illegible]

[illegible] ॥१०॥ [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ॥११॥ [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

॥१२॥ [illegible]

[illegible]

[illegible]

॥६१॥

आपतनाहिथापिदाक्रोधा
धछे:॥१३॥ तर्ध त्रिजीयार
कः नाहिनइजीव पाछ
तै अजिजिअतनाः जीपार। १३
नाहिथपिदाक्रोधूछे:॥
१४॥ आतरडीजीयारपु
:नाहिनइजीव तपाणी
:तै अजिजिअतनाः अतै १४
कनाहिथापिदाक्रोधूछे:
॥१५॥ हिरइनजीयारकः
नाहिनइजीव तपाणा
:तै अजिजिअतनाः अतम १५

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

आदिमांहे नूरअपाराथे जे:अ
लमाए तो जे आलिमअल
म: ए तारी फकरपे: नपा
साहिपणा: नूर नापा धीछे
: ते नूरना नूरए फ्रेच पानो: ने
फ्रेचपाये तथा आज मो: ते
नूरना नूरलखाने पो तापा
सेराअमो: तपाललाने पे ।
तानालार जारा अमो: तो ।
खोहाताला: तेने पोतानाप
नाजाफ्करीने राअमो: तेप

[illegible]

[illegible]

आः२।। त्री निक्रताप्य तोःन
प्यूरजेह्नेन्नद्याक्रुद्ः।।३।। मो
मोक्रताप्य तोःफरज़ान
साहाजद्जो।अत्पा;अ
जलोक्र्मालिपअलेज॥।।
४।।एपायारक्रताप्य नोः
सोप्यप्यपीअ:१।। तारेप
फ़ोखोद्दातालोएफरजा
पूछेःनिक्रोधिजू जनःजूर
तराम्पीनेःनूरनाजूपा
पामेःतधाआलजमेःतप्य

हानांच्चनाःतेनाजातापे
तानाच्चनाःतथाच्चरनन
:कुच्चालानागोनाःतेनाअ
तपरादिनागोनाःआहिच्च
च्चनलकुरअंःारतारे
पनाच्चोहातारेंच्चरनापू
छेःनेफ्रोर्छनजातजाने
:नूरनानूपडेतथाःआन्न
नेःतेनेहअजनहपेथाअे
:तेनेज्ञाआच्चरीतनाज्ञाआने
रथाःआहिच्चराच्चीलेअंः

तनेउ॥७॥ गरदः तथा अर्छद
नोअपापपीया से: तनेदना
आना तुफान पारा माते
से:॥३॥ नारेपनी मोहातर
ताए फरमा पुछे: ते काय
नपा माहा मद: मोसत फा
ए: नुर नामुन पुछे: ते मा
ने अमापत आदा से: ते तर
फा फरपी से: आने ने अ
पीकरी मान से: ते लपपा
फा मुमन हसे: ते ना मोर

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

॥५८॥

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

માજુમનખાણાહતાઃતેદિણે
તેનૂરનાજાઃનાહરપ્રગટીઓ
ઃતથાઆગમાછેઃતેકાને
આગમાનેઃઆમેદેખાને
ઃખખુણખખુણજોઆઆબજે
આછેઃતેનેખણીખણાખા
તનેઃહાસલથેઓછેઃત।
ઓલતાનગાનનખાખા
છાએઃતેકેતાપપોતાનીઆ।
ગાઃઆણાનેપાસાનેછ
છેઃતારેતેનૂરનાજૂપાસા

आनमा नेःमोहातालो
नेःमोकुरानकी हाछेःप
माहिती नेमोरव्यानाकी
हाछेःअलोमत फनलेःत
मामअकानइअलाम्ण
कीहाछेःपमापरनामत
मातारी फःमणमकाकी
हाछेःतारितेहरफपाछेः
छमाजेःताहामगमालो
हाछेःअनेमारपेहकी
गतसामानोछछेःनेह

नरत·नामनहरमूजनानी
:नोरनबूपतः तहीपरपे
दाथईछेः तारेनोदातान
एवादूछेः एकताबसोले
तानः गानबपाबाछाने
सोपादछेः एणोनोदागोना
कोघाछेः चनेतेपाछाबक
साछेः नेणोनूरनानूपास
सानूबाः नेघाणाघाणार्थ
नतदाघाछेः नेकोईदास
दारीघाणादेतानूताः तेना

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

तेमरकतअरपे॰ नूरनाम ।
नाछे: जेकोई नूरनामूपा
ये॰ तथा आजमे: तेने होम
हापानमीपाए: तेनेहक
तातापेतनी: पनाईजा
राम अे: जेकोईपेहोअन
मानाहीजदनी: पाअेतथा ।
आजमे: पमा नूरनामूज
मानेपेतापाअेरामसे
:तेजारेनजाजपडे: तारेस
रहोठकोए: नूरनामूराम

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

॥१७३॥

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

अली: तेप्यदानेसोदातालि

नोवहेसे:तथापन्नीफरम

प्यफआआफरसे:सरपेम

रहतथा:ओरततेमावई

नेनेसे:तथाआआमाने:

सरपेनापल्लाशथासे:ह

फतालाएप्यदाविपररेह

मनीननरफरसे:पन्नास

रहारे:सपत्ताएतकादीखे:

ओफहनारपरसलगा

:मफामनाव्येअनेतः प्यह

गाफरीएः तथा आराछिन
रनारीनारा षवएः तीनी
मरवे मपाया: एफवाद
नपेफ मोछे: तमोदाता
लाएः पातेयफ मोः तना
दमन कदफदामेः तयाद
छिपरके नोशरनादू नाले
नही: ॥१॥ पाना षोदातव
एफरनापूछे: नेकोछय
दानाछकरीने: नूरनापू
पामेः तथा आ नपेः तय

[illegible]

realpatidar.com

पूरणपत्रा॥पाळुभाओः
नाईतेनान्नजेन्मोदाता
लोहीईः तेपदाने आ।लप
पीतापाओरा।भसेना८॥
पञ्जीओ।दाता।ला।लाउ
फरजापूछेः केईओ।
नपारनीनातेःतभाओ।
करपारनीरातेः नूरना
नूपाओःतभापतनानेअ
नमपेःतेपदानेकुदरत।
नभकापेगा।लोरा।मोः

तनीअलातालानेह्रीजे
दयाणुरछेः॥ पालाहक
ताएफरमावूछेःनेमन
नारोरजपकोध्याछेःअ
नेपोलरकोदीदीछेःत
मापेलापेगाम्बरताः
अनराजनलालाः॥१॥
पानापेगाम्बरताःपअ
रोपलाः॥२॥ नीनापेगा
म्बरताःमूआकुराजला
ः॥३॥ मोपापेगाम्बरताः

॥१५॥

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

realpatidar.com

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

॥१८॥

पाम्रे·तथा आनम्रे:लेख
नपेतापाअेरामअे:
तथापेतानाधरजारा
मे:तेमहानेकानें:नेम
तजाहेमकानकाद्याछे:
पेहके तेमजामूंछे:हेमा
तूअरपेआमाथछे:ने
नवअेनपाछुतारमा
तारतारछे:तेमेहे मन
मराधिले:तेपानाताज
हरखूलानाना:पेमप

मनछे: ऐजमीं दातालोऐ
फरमापूछे: तेजेहे इनवफ
राषोले: फरमापूछे: तेगो
रषोजाजमहाः नवाजा
हाजदरपूलोला हेः मतप
तुमनजावा ञ्छेः हपुलोप
ऐलोलोलहेः जाहाज
दररपूलोहेः ॥ २० ॥

अमतगोरफरमावाना
दोवावल नूरनापूजा

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

अहारं·हमतेरे नूरथी:आ
तदरी=आपफो:=आपक
री=आनदी=आहि:॥ पेल
दरी=आपेजे:तेरे नूरफ
अरजाहै:॥१॥ दुजा दरी=
पेजे:तेरे एलमफो आरज
हि:२॥ त्रीजा दरी=आपेजे
:तेरे मलफो आरजाहै
॥३॥ चोथा दरी=आपेजे:
तेरे अपूरीफो आरजाहै:
॥४॥ पांचमा दरी=आपे
जे:तेरे मफोरी फो आरजा

॥८१॥

[illegible]

हाफ्ते=आ: पाछे मोहा ताल
फ्रा फ्मर मानफ्र=आ: फ्रे नूर
तेआऽ पर थ्रेठा: पाछे नूर
तोआऽ पर प्रेठ नो: पाछे
पातासर म=आर्छ: पाछे प
ता फ्रोहर त=आपसफ्रोत
: तहाएफ्र=आरसा पेहाफ्र
ती: पेआऽ फ्रानामताआ
नरतोलामानत: फ्रे=आ
रसा फ्रानामता: मारताल
मे=आत: तहा नूरताआऽ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

॥८५॥

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

realpatidar.com

[illegible]

॥८५॥

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

॥८१॥

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

॥८८॥

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

नूरनामानामामातल
मा छै: नपाआहिपपाय
:आहिजेहि नव पराछ
ल: पेला आला तालाने
:आरपातालआरणएहि: प
छेजेहि नआदमने: मा
मनाहिमापे हाकधा छै
:आरमामनाहि: मू
परमेगो: पापेगो: ले
पाआहिपके: नूरकापा
ना: लमेगो पडेगो: आ

॥९४॥

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

॥१८५॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

फाओयायहोपेगाःऔ
रपाअअर्धदूफाओया
होपेगाःओरदअअर्धदू
फाओयायहोपेगाःन
परहोयोदोफेहफमे
लेगाःपालेपदलेअरदी
आहेःपेफानफरगआ
हेःदअतीनपाअतअप
दिपडफाओयायहोपे
गाःपाअअर्धदूफाओया
यहोपेगाःदूअरअतातत

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

साचेः सोनाने ने पहेल
क्रोधेः॥१०॥ हीपाणा ने हु
मोआरः सोही पोते न
राखरः॥११॥ ईस नूरथ
की अलाजे तरतनाः रो
अनहाएहीनजोसत
पनाः॥१२॥ जोतरतना अ
लाथापारथजाजेः ने न
ऊनाने मानरुतजाजेः
॥१३॥ तथे अपपरुलजो
पडएरुथजानाः सोना

पाघेहीनजेठाजः॥१४॥
हीनजेदुछताम्मलोच्छा
च्छापेः नूरकुपछाने
आहाकुपापेः पारीओ
तनवोगजापेः॥१५॥
सानेओतानेअजेवा
पेः नेनूरनाजेपरकु
नलगापेः॥१७॥ नूरना
जेजाइआनामाः ने
कोइथाओवोलकरइ
आः॥१८॥ नरजाहाजइ
कोकरेममानः पेइ

अन्निनकोहेमपछान::
॥१८॥ मतत्तकणानोऐक
बोना:नूरनामापढेबो
पारथजामा:॥२०॥पा
रकुपानेबोनेमतबो
नापे:नेगोरनोरतक
फरानेधाये:॥२१॥भ
लानाहानहमाहाएक
बोनान:नवनामाहेम
बोनानोपारथजामा:
॥२२॥नूरनामानेएबा

ओ । न । आ । : नूज न कू नूरी
ओलादे अआ । आ । : ॥२३॥ नूर
नामा । पडे ओ । ने ए करजा
: ओ । पा । पेन न त मे ठा । म : ॥
२४॥ आ । ओ । अलप नूर
ओ । मा । न : नूरी त अ त हि
न र ण न ठा । म : ॥२५॥ अ
द पा स न प ना । रा । ए द्ध : ओ ।
न र मा । हा । मद आ । ना । मः
अ त गो । र प्यार मा । ते पा र ज
मा । म आ । : ॥२६॥ आ । अर

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

नः नर अलोजा हाजा हुअ
सतजारी हीयाः परधज
आठलोक्ष करणा सधे:
गोरखनाजे: आहानीक
हगाक्षाहीः नारेसालेजा
लेजस्सनाक्षुमाः नेलख
हंजाः क्षु हीती: ।।१।। जस्स
तनाक्षुमाते गोरखनाज
ते साधः हीलेक्षु नाक्षुमा
ते: पारस्सता अजालाले
साधे: ।।रा।। लेक्षोखहरज

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

realpatidar.com

तमामनोमूनापरमा
थःताहा[illegible]जीनामाना
तेनोनोथः॥११॥जोमाते
नेजपनेजोमनझाते
ःजोमजोगतनामारग
पताथेः॥१२॥जोमाते
नेफोथनेघेरमानथेः
तोह्निनूफेजपफमाराफ
राथेः॥१३॥जोमातेने[illegible]
अतनेमारगनूनाथेःज
पनेजोमजोगतफराथे

॥१४॥ [illegible]

[illegible]

[illegible] ॥१५॥ [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ॥१६॥

[illegible]

[illegible]

[illegible] ॥१७॥ [illegible]

[illegible]

[illegible] ॥१८॥

॥१०५॥

मोमन तेने आपे अज
र जे हणाशे: जे आगामन
गामका पात पछशे: ॥१९॥
मोमन तेने सोधपाधका
पात पडन तरणाशे: अर
पेका घरका पात परमा
॥२०॥ मोमन ते जे पीरपंथ ॥ — घरफुन होदे छे
शे: नर ण नरणका सात
पेमे: ॥२१॥ मोमन तेने अ
तपासायाकराया नेः ता
साकराया अध करणाशे

[illegible]

[illegible]

[illegible]

॥१०८॥

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

॥१०८॥

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

नेरगानोमरे:जोमीतणे

आसणअमरे:॥११॥आ

सणनर्थनीफरेहेनदा

:पफओगोरगतनेएप

दा:॥१२॥पाडीआसण

पेओफआ:दलपीदूर

फरीजोजाआ:॥१३॥अ

तअताफेपेओअहीःइआ

पजारेहिप्रीरहीः॥१४॥

पूरपइआपूठेनोहरे:

पछजइआऊनजोप्र

[illegible]

मोलीहि: धूपदीपानेअर
पणमीकरे: २०॥ मरीकम
मेगूमारे आप: अणेका
डीपीरआहामोमाप:
रथामाडीकमअनेएकम
तेरहि: आआरं नेक
मअमाधरे: २१॥ कुलहि।
रधरपाटेधरे: मूआम
हननाआरपणकरे: २३॥
आलेमणाक्षिपमापेनू

र: आलिनरजनछेअरपू
:र४॥त्रणदेवनोपूजाकरे
:नूरलछनेकाअजाधरे
:र५॥नूरजाश्रुकतीनोपा।
अ:नूरनेनारायणभ्वाणेप
रकास:र६॥पायतनते।
नूरजारहे:सोपासपात्र
कोलनेगजाछे:र७॥ए
कजनोपछनेभाखाणेज
ण:गोरनोरआलिएकरी
एक:गाणे:र८॥आलिगोर
नोरपेठासहि:र९॥आए

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

आरः ३४॥ जख्या तेने जा
रगातनो आपे जेहेःपर
पेहनाहीख्यह लेजागार
हेः ३५॥ जख्या तेने जनजा
रोरहेः जोख्यपीजरकेने
नफहेः ३६॥ नतनत हाल
हलाजी हाद
गहनारे आपः ३७॥ फरी तारेपापः
आसाम ने छोडा पेफरज
ःगोरगातनी फरी आ आ।
मारेपाहेहरजः ३८॥ पी।
लेआमूनेपयनेपा

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

पडपा नाछे॥ फरमान
जः॥ प्यमाना लाहररेहमा
नः नररहीमः मतजोरपा
नपरमाः ऐहरवमानमा
हाः आहपामनपनरीन
नाः नर आलोमाहामहमा
हाः तमारीहोपाः माहप
तोप्याहनारपारः प्यहाजे
नेगारः प्यफसागो नाल
फः अपाल आप्यरः माह
मोर तना अलोपाफः

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ॥ ३ ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

अलीमाहामाहसाहाःअ
तगोपीरकपीरदीनःअ
तगोरपीरओदरदीनः
अतगोरपीरआहिप्पदी
नःअतगोरपीरनआरदी
नःअतगोरपीरआमअ
दीनःअतगोरपीरअली
ओदीःनपीनूरअतगो
रःनरअअलीमआहाः
नरअलीनरीननाम:
नपीनूर अतगोरत

મારી દોપાઃ પરથમ આદ
નરીજનન અકકારઃ અક
કાર થા ધંધોકારઃ નરીજ
ન તે નરાકારઃ તજીઅ
ઝ નાસુરી જનકારઃ અપા
જાતજે ધરા અપતારઃ
અપાજા હીનજાતજેઃ દ
નીઆજાતજેઃ સાહિરત
જેઃ ખાતનતજેઃ સાજરત
જેઃ સનેહરતજેઃ કાદિમત
જેઃ હાદિમતજેઃ અપાલત

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

६॥ अपुती नूर तन: नूर प्य
ला पुा नरी जन ही न: अेअ
र अपुती जे टी अ नि: जे टी
प्या न नतुपना प्रो पे: जेट
प्यार ने जे टी पाट: जे टी प्या
न जे ा भ जो ा गात ना नाट:
अ तगो रव जा जा सा हि:
नर आ ल ल जा हा ज द सा
हि: हपु ला एि ला हि॰ एल
ला हि: जा हा ज द र र अ
ला ला हि: ॥ ५ ॥

हीपापमब्रा नेपाटमाडीनो
अरहीक्ररपानीछे॥पार
मानजः॥पुअमलोपर
रहीमानवररपीमः अत
गोरपापपरमाः अंदर
धमामआपाः आदपाम
नपनरीवनाः नर आला
मापामदआपाःतमारी
हीपाः नपतन अआला
माः अरतालोअलोमामा।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

॥१२०॥

[illegible]

नररहीनः सतगोरपान्न
प्यरंसाः उदरखसासमा
हाः भ्याइपीअनपनरी
जनाः नरभ्यलोसाहास
इयाहाः सतगोरपीरकु
प्यरहीनः सतगोरपीर
सोइरहीनः सतगोरपा
रसाहिप्यहीनः सतगो
रपीरनसीरहीनः सतगो।
रपीरअसमसहीनः सत
गोरपीरसलाहिहीनः

नरअअलामआहाःन
रअलीमाहामदआहाः
नमानूरअतगोरतमारी
हापाःपरधमआहनरी
जनदहोकारःसेअरका
रणोगोनोरेलधाअप
तारःदहोकरमाधानजे
दरीःछत्रामजेगमोरा
आमोकडीपेलोकराःपे
लाअरजामारमअतनंः
ताहामाअरजारोरतनः

आपसतनपी जरी आ
नूरः तेना असरना सदनेसू
रः नाराएण असरजा नूरत
यारः स तूरपैदने अहुक ।
रः अहुकार थी असरनोस
रैनो सतपीः दरी आप
तारनेवाद्याबाद्धः आप
रपैदनेसोकसागाअण
आपीः धरजा आपाने
पाअकेरैः पारना पूना ।
ऐरा हैः कजास जाहिकजा

धरे: धरगतजा अपा

परपरे: आदअरजाएअ

रधापे: असादअनाआ

फारसे: अनतरूपेयज

तरफरा: फेरतारजूरतमे।

धे: अरले। फ: परलेफ

देपलेफ: नजालेनजात

:गोरगतगागा: फरजान

आदानाईजान: अनन

ततजेफआलफरे: फज

अजाहितजारीफजा। धरे।

रहीनेज पाचाजाप:पार

कुप्यारहीनेकोधाचाकु

:र्धमाममआहि:मान्हम

ऐपूरी:मामा:मम्माभाम

अपाचाम:अतगोरर्ध

मामआहि:नरम्माचाम

हामहमआहि:हकुचाऐ

चाहि:ऐचचाहि:माहि

महरनमूचचाहि:॥ऐ॥

देपापारनेमारदेअम

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ॥ १० ॥

॥१२५॥

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

आाहि:हकलाएलाहि•ए

लालाहि:माहिमदररम्ह

लालाहि: ॥ १२ ॥

दीपानीतदीक्रनेपरना

मक्ररपानीदष्टि॥पानमा

ज:॥पमरमलाहिररहमा।

ननररहिमा:अतगोईपा

त्रपरमा:ईदरवमामा

आाहि:आदपासनन

नरीननाःनरआजाम।

साजहूआस्वाःतमारीदी
पाःगोरखदीपःगोरखेपत
ःगोरखनाजोगतनसीः
गोरखनाजोगतनसीः
जनताजूने·कलेजोकु
पाःखोलोघरजदीपार
ःदेखोजास्वाजहूआकोदे
दीनःनागोनोतनेमागो
खोतःअतगोरखजाजस
स्वाःनर=पलोजास्वाजह
आस्वाःसकलोपलोस्वा·

॥१२८॥

[illegible]

[illegible] ॥१३॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

अतगोरपीरआदहरहीनः
अतगोरपीरआहिप्यही
नःअतगोरपीरनबीर
हीनःअतगोरपीरअत
अहीनःअतगोरपीरअ
लोआहीनःनरअमाला
मआहाःनरीननानर
लोःनप्यानूरअतगोरत
पारहीपाःअकुल्लनाहः
आहअप्यहःनूरतनप्याप्याः
आपोआपहिपाआपी

॥१२८॥

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

नपाजापः अतूरसूरतन
रीजनञापः अनदीपतै
तिपनादीपअरजः जछ
फजअफरीनेपापाधरज
ःओपापीरअनेअफताअ
रःपाअनपजजनैःफज
अनाफेरतारःञाआपू
रोपाओधरोःनूरनोपर
काअफरोःफजअआहि
फजाधरोःरजेअरजपनै
पापनफरोःनपानूरअ

तगोरःनरअअलामआ
माःअतगोरपीरआला
होहीनःपीरअमअही
नःपीरनआरहीनःपीर
आलिम्प्रदीनःपीरसोहर
कुव्वारदीनः
दीनःपीरश्शामआमा
:अरणकरेणाप्रदेपमा:
कआरकामिद्रमाःनकल
कानाराणिःआरप्रा
पःकमआमाकमाधरे:
घटमापामअतमारोकरे:

अतगोरध्वजाजआहाः
नरम्प्रलोजाहाजहआह
ःहम्रलोऐलोहा॰ऐललोहे
ःजाहाजहरस्रलललाहेः
॥१४॥
हेपाक्रमजाडोनेसरहेक
रपालोछेःफरजालला
फमजलोहररेहेजाल
नररहाजःअतगोरपाल
फरजाःऐहरध्वजाजआ
हाःम्प्राहपासलपलरी

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

धःसतगोरधभाभसाह ।
ःनरआलाभाहाभइसा
हाःहकलाएलाहाएलल ।
हाःभाहाभइररसुलला
हेः॥ ॥ १५॥

हेपाकुभसहिपरेआप्पा
भुकपानीछेःप्सरभानण
॥प्सअभलाहररेहेभान
नरहीभःसतगोरपाह
ःएइरधभाभसहाःआइ
पासननरीकनाःनरआ

लोमाहामदुआहाःअत
भा
गोरपीरकोरदीनःअतगो
रपीरओदरदीनःअतगो
रपीरनआरदीनःअतगो
रपीरअमामदीनःअतगो
रपाअलाहौदीनःनरअ
अलामआहाःनरअल
माहामदुआहाःनरीन
नमानःनफानूरअतगो
रतमारीहोपाःपरधम
आदनरीननःअकुफा

॥१३३॥

र:अरकारपादहीकार:
अंअरतणाकोईदापातार
:जनजाफरीएधरीद्र्तत
:तारओएयजनवंत:
प्यारजअनपिजरीआदृ
र:तारेअरजारोरतनरपृ
र:फरीएकोदाइअटेकाम:
तारेअरजापरनेपराणा:
तेपरनाजीलीजाआमा:अ
नतअरूपीअंरजकाआ
:जजआरेपूरेपासा:

[illegible]

realpatidar.com

ध्याह आहाजीः नध्यानुर
सतगोर ध्यरमाः तमे स
भरअ हूपी धारमा कमा
धरेः सतगोर छ मामस
हाः नर सामा माहामह
आहाः हकलाए लाहः
एललाहीः माहामहर
रसूललाहीः॥ १५॥

होकमसे सामातारीन
अरहोकरपानाछेः फर

मानजाापपअमनोहि
ररेहेमानननररहीमः अ
तगोरपाव्पपरमाःईह
रघमामअहाःआदपा
मनपनरीनना:नरअ
लोमाहामहअाहा:त
माराहेपःअपामाल
:पानफुलनानोगाता
रीतमेछेःघटपाटनाघ
णातमेछेःघटमापाम
तमारोछेःअपामीहात

ओगतातमे छे: प्परमाप्प

अनप॰माहि अर: आइना

राणेणा: पाटमापाअपूरा

:आपनताआप्परनाइणी

तमेछे: :आपरपेइनाकुपा

इरे:तमेपरगाटरुपकरा:

नाप्पृइपनाओ तता न:अ

तगोरई मामसाहा:नरआ

नामाहामइ आहा:हक

नाणेनाहाबेननाहा:मा

हामइररअूननाहा:॥१७॥

हाभाधरपारेफुलहार
सडापानीछे: प्तरमानक
॥ व्यआजनाहरदेहेमान
नररहीमः सतगोरपान
व्यरमाः ऐदरवेमामसाहा
:अभाइपासनपनरीनन
:नरअलोमाहामहसा
:सतगोरपारकुपतरही
नः सतगोरपारमोहदरही
नः सतगोरपीरसाहेप
हीनः सतगोरपारनआ
रहीनः सतगोरपारसअ

अहीनःसतगोरपारअलि

ओहीनःनरअअसलाम

आहाःनरअलीनरान

ननामःनबीनूरसतगो

रतजारीहोपाःसदरूज

रमनिमदरसूलःसूलन

लालहोःपलेएकरामः

हव्यांसाएललाःपेनामत

मोलाःपेनामतपकालः

पेनामसेमःसाहिप्यास

तारःसाहागोप्यारःसा

हापरवरदेगारःआहाप्र
लीःआहाप्मालेकःआहा
अपपलेःआअआमरःआ
हाअपपतारःआहापात
रःआहाजछःआहकंछः
आहापाः[illegible]ःआनरआहि
ःआहापाजनःआहाप
रअरराजःआहाराजःआ
हाप्करअनःआहाप्मेदंः
आनफुलक्रोनाराएपः
नरजनानराप्कारःअला

॥४३१॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

॥१३८॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

जीछे:अपाजी आअना
पाअनानाजोगातारीत
जीछे:अपाजी फेअरफअ
तूरीनाजोगातारीतजीछे
:अपाजी अगारअदनना
जोगातारीतजीछे:अपा
जीअूपाअदन.अूफडछे
पाननाजोगातारीतजी
छे:अपाजी अतर अपा
ल.गोलापनाजोगातारी
तजीछे:अपाजी पेरअल

॥१२३८॥

[illegible]

॥ २८ ॥

श्री ॥ ॥ श्री ॥

हो पागोरनोरमा आवे
गापत्री ते मारी छे: जमा
सधमागोमा आवती ने
जणावी: ते आवे गापत्री
जणो श्री मो मा ज्ञ जगो: पछ
ज्ञ जम जगोमा छे ता
पो: मारामाहा मदमा
हा जगो आवे जणावी
मही: ज्ञण दरपामा पद्द
ज्ञरी नी: ॥ श्री श्री ॥

फरमां[illegible]॥ पयअमलाह
ररेहे मामनररहीमः प
रपेमपरमेअरः परपाहे
मलेआगारः अेपलोपा
रहाहे तरअतेः दुरतला दु
परपाओ। नहेपाः अहा
अरपेपरलेगतः परपेम
लालपर हापाहु हे।कार
ः तारेअपामीतमेः आहव
रीमनानराकारःतामा[illegible]
पनयेनापरीपरततः ह
यंहेहीते आपोरअना

राएशः आपजन आप
दे आनकरतपगः होम
पागीजा॥ तेनूरनरपा
एग आपहोम तकहेः तह
गरी न नतेनराकारः ता
हालालपरण पाटदघाक
रः तारेनहो आदः नहोम
पदः नहो आदः नहो द
नादः । हो अकुंकारः न
हो दतपोतः नहोरेवत
ः नहोरयनाः नहोपप

नः नही पाणीः नही आणी
ः नही चंदः नही सूंदः नही
अगन· नही धूजमानः नही हि
मानः नही पवानः नही प
रवतः नही पखाणः नही
नदी छि: नही नरपाप्रः न
ही अंबरः नही आगारः
नही धेपरः नही केवाल
आः नही जेरः नही जेम
लाः नही अरग· नही नर
कः नही जरतः नही पाता

ला: नमो कुदरती: नमो अक्का

स: नमो अद: नमो सूर: नमो

तारा: नमो इन्द्र: नमो मेघा:

नमो अठ ला: नमो रेणा: र

मो दीपक: नमो सून: नमो

पोकार: नमो जरण: नमो

मरण: नमो अंसार: नमो स

रोगा: नमो भाव: नमो ओ

कार: नमो रूप: नमो रआ

: नमो राग: नमो भाग: न

मो आच्या: नमो इश्र: नमो प

दमः नहीधमः नहीधम
क्षारः नहीरीतः नहीकरा
तः नहीजोगः नहीजोग
तः नहीजगतः नहीजग
तः नहीजोजोः नहीजो
जोः नहीकाजः नहीका
जोः साहेबापजेजे दफ्
एनहीताः दोजोदन
ज्ञानताः फेर्यपरेसजर
फेर्यपरेतापाजेः ताफ
जपाजीजाएः परथपता

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

॥१४३॥

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

रनापाछे:४।। नेकरणेक
लेकुफ ना=अवतारपात्र:
तेओणेरनेअरनाछे:न
पक्राअपाना न हेरूपलो
ह्या:तेरूप=ओलानीनेक
रोक्रनाछे:परधननाम
तोनालेः१।।=अन्तलेः२।।
सूनः३।।आनः४।।नानः
मनः
गानः५।।=अंनालेः७।।कू
रःतेनःट।।नलेः१०।।क्रमले
:११।।करहेमः१२।।=आदिपे

॥१४५॥

[illegible]

realpatidar.com

ओरमेसरनाथ:नाहथ
फोगोर नोरे अपतारला
धा:ते अपतार अेापाना
ने आनफरो फनाथ:प
रधनतो अफद:१॥ हिना
द:रो अपागत:३॥ ऐहद:
गे॥ हप:प॥ फप:ड॥ तथा:
आधर:ल॥ तेन:ष॥ फेपात
:१०॥ नाद:११॥ हितरा:१२॥
हरीतफ:१३॥ पूरपा:१४॥
अतीतपसा:१५॥ परम

रमः१५॥ पमतो भमछः
१६॥ मनार्थतः१७॥ ङिगार
अनैः१८॥ अनूपतः२०॥
मरेमपतः२१॥ असौम
नः२२ः पना कुमनूमः२३
पमतो भक्रोरनाः२४॥
पमरपः२५॥ ढकतार्थः
२६॥ क्राजमः२७॥ परजा
हैतः२८॥ ठाठ मनूमः२९॥
पमतो भपारारः३०॥
हनिरः३१॥ रूपकः३२॥ के

अप:३३॥ नअन्म लोपन
:३४॥ गाफितज:३५॥ अज
हेम:३६॥ पअतोजन
रआर्ध:३७॥ नूनालेम:
३८॥ पअपहण:३९॥ पा
रतोम न:४०॥ जआअनू
म:४१॥ पअतोजपाजन
:४२॥ जानधात:४३॥ प
रधनोन:४४॥ अअरत: म
नेमहोरम:४५॥ पअतो
अपरअरज:४७॥ रघ

॥ ६४७ ॥

:४८॥ नबुः ४९॥ नेमाचेतः
५०॥ कैपानेकः ५१॥ अनो
पानेः ५२॥ दुअरधः ५३॥ प
अती अरानः ५४॥ लपः
५५॥ पदनः ५६॥ पारमतः
५७॥ पारपानेः ५८॥ पास
हेपः ५९॥ पअती अकुर
अनः ६०॥ परतुमनेः ६१॥
अंअधानः ६२॥ पानेअ
तीनः ६३॥ पेणावधरान
:६४॥ अीरानः ६५॥ पअ

[illegible]

[illegible]

નગારિઃ ૭ાઈજાળજઅ
જાળિઆહિનઃ ૭॥ એહનૂ
રજાહિઆહિઃ ૯॥ એહઈજા
એહજાઆપારહીનઃ
જહીનઃ ૧૧॥ એહગાળિય
એહજાનાઅૂરહીનઃ
હીનઃ ૧૨॥ એહનજાળહી
ઃ૧૩॥ એહઅધમહીનઃ ૧૪॥
એહિહજેહિરહીનઃ ૧૫॥ એ
હહિહીનઃ ૧૭॥ એહપાળ
િઆહિઃ ૧૮॥ એહહાઅ
આહિઃ એહઉજહઆહિ
આહ
૧૯॥ એજહઆહિઃ ૨૦॥ એ

2010 Before -Satpanth Manuscript 12 -Nurnama & Dua (162)

हनामेरआहाः२२॥ॐहजु
आएफुः२३॥ॐहजोएफ
ःर४॥ॐहजुमतागः२५॥
ॐजहीएहीनः२६॥ॐहजु
जलआहाः२७॥ॐहफा
फकआहाः२८॥ॐहलजा
॥२ः९॥ॐहमसनाजआहा
ः३०॥ॐहआताहीहीनः३१॥
ॐहमेंसजसहीनः३२॥ॐ
हनआरहीनः३३॥ॐहआ
हफहीनः३४॥ॐहओहर
हीनः३५॥ॐहफुवारहीनः

॥उजाअतगोरपालपर
भाःउंहरवेजाजअमः॥३॥
आहेपीअनपनरीनना
ःनरआनाजाहाजहरआ
हाः३॥हक्लाउंलह.उ
ननाहोःजाहाजहररहे
ननहेः॥२०॥ ॥

होपायाभाअर्वजाजवे
नोक्राक्रणोमणोःफरजणे
॥पअजनाहररेहेजमन

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] :१०॥ [illegible]
[illegible] :११॥ [illegible]
[illegible] :१२॥ [illegible]
[illegible] :१३॥ [illegible]
[illegible] :[illegible]॥ [illegible]
[illegible] :१५॥ [illegible]
[illegible] :१६॥ [illegible]
[illegible] :१७॥
[illegible] :१८॥
[illegible] :१९॥ [illegible]
[illegible] :२०॥

॥४५२॥

[illegible] :२०॥
[illegible] :२१॥ [illegible]
[illegible] :२२॥ [illegible]
[illegible] :२३॥ [illegible]
[illegible] :२४॥ [illegible]
[illegible] :२५॥ [illegible]
[illegible]
:२६॥ [illegible]
[illegible] :२७॥ [illegible]
[illegible] :२८॥ [illegible]
[illegible] :२९॥ [illegible]

[illegible]:३०॥ [illegible]
[illegible]:३१॥
[illegible]
३२॥ [illegible]
[illegible]:३३॥ [illegible]
[illegible]:३४॥ [illegible]
[illegible]:३५॥ [illegible]
[illegible]:३६॥ [illegible]
[illegible]:३७॥ [illegible]
[illegible]:३८॥ [illegible]
[illegible]:३९॥ [illegible]

॥१५२॥

[illegible] ४०॥
[illegible]
[illegible]
[illegible] ॥२१॥
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

realpatidar.com

नहेआ|हा:२३॥ तेपरहेप
णाहेर्यते पूजा ए [illegible] र
:तेसो।एलाधाए: [illegible]जरा
परनापार: अ तजारई
जाआ।हा: नरक्रलोजा
हाजहेआ|हा: हनाएला
हाएलालाहा: जाहाज
हररकलालाहा:॥ २२॥

हीपापेला और।नहेआ।
रुजाअते क्रिहेरुजेलानदी:

फरमाणा॥ पअमलो
हरने हैमानेनरसीमः
सतगोरपानपरमाः
दरछमामाआहेः॥आद
पासनपनारोअनाः
नरे॥अनेमाहेमादसे
हातमारोहीपाः॥ओतर
दमणो॰ नूरपा॰ पाछेमः
आरमाणो॰ आरपाणोः
आरपेदः आरकेतेपःपा
सतनपाकः आततनसे

लाएक: आर दे जो आमन:
हेपादेवजाज: मेत्र मेत्र
होअमनो केलकाएजनो
परपार: सतगोर वजाज
अहा: नार अलोजा हाज
दआहा: हकलाए लोहा
एललाही: जाहाजदरर
अललाही: ॥ २३ ॥

हेपापीजकपसनेपूर
पदआ अेदकनीवे: क

रखाळजाख्यअजलाहररे
हेखाननररहीखः अतगे
रपान्नख्यरखाः एहरधखा
खआहीः अपादेवीअन
पंणरीजनाः नरअपल
खाहाखदआहीतखारे
हेथाः धरती आकासः
पवनपाणीः अठारभा
रवनसपतीः एकथाअ
ख्यरखडः आतदेपः नप
ख्य : आतआहेरः नपखे

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

ए।दुआ।श्री।दुक नी।छे: फर
मानजो।।ष्मअमालो।हररे
हेमान नररहीम: अतजो
रपन्नपरमा.: एहरषीमा
मअहा: श्री।दुपीअनप
नरीजना: नरश्री।लीमा
हाजदुआ।हातमारीहेपा
: आता।कुता।ता।र: दुहृपती
: कुनकुआकुती: ताजना
हेपी: रत्नमाणी: अकुतपा
तमा: नोगामा।श्री: श्री

॥२५६॥

[illegible]

[illegible]

अदपीअनपनरीननाः
नरअलीजाहाजदमा
हातजारीहोपाःमादम
रनःनपलिमताराःमा
तपनरमताःनरजाहाम
दमाहाःनूरमेगाराःन
रीननतेनरीकारःअरम
कोरमाःलोहोकलजःते
पईकोटदोपारःकेमत
गोरप्परजाःमतपीम
दाएअोतजगःजेगातजा
रगाजेदःतेप्परजदोपा

सतगोरब्रजाजमाहाः
नर अलीजाहाजदमाः
हकजाएलाहा एललजा
हीः जाहाजदरूरूललला
हीः ॥२६॥

दी अादसे दमाएकारना
मानाछेः फरजानजा॥
फरजनलाहररेहेफान
जररहीजः सतगोरपात्र
फरजाः एदरब्रजाजमा
हाः अादपलसनफनतें

री ननाःनरे आलेनाहि

नदेआहिहाःतमारीदेपा

ःआहुकारःपहुकारःमहु

कारःमहुकारःनरीननी

नराकारःआहेमतूरेरो

पीधनःतमेनाहीपारने

छिपरफुनःफुनमामेठा

भूरतमारःतेमाएतेनरा

ननानराकारःमारपीर

अनेएकनारःमाहेमा

तसरहानो आमारःपे

पर्दहमणानूजीरदहानःपू
जाएतोजेरअजानःकहो
फरजानतेनाम्गहार
:दरती अअजानरहाएकु
र:अतूरदआ नाम्पुणाम
र:ग्पूगालग्पूगाल:अङ्खप
अतार:आनअतोफेठक
आफार:ठकपफारयो
अआर:कुजेनूरकुमआ
मामरे:नगानमाकेआ
मजेर:अपरपेहीनगान

॥१५९॥

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

॥१५०॥

रहोझरानोछे:हेनदानो:
फरमानजा॥प्पसजना
हररेहेमाननररती मः
सतगोरपात्रप्परमा:ऐह
रछमामसाहा:आहप
सनपनरीव ना: नरआ
लोमाहामद आहा:सत
गोरपीरफुप्परहीन:स
तगोरपीरओहरहीन:
सतगोरपीरआहेप्पहो
न:सतगोरपीरनसार

दीनः सतगोर पीर सम
सदीनः सतगोर पीर स
लाहीदीनः नर मुसला
मसाहाः नरला नरी नबी
नाजः नव्यानूर सतगोर
त जारीदीपाः मुआदनासा
ए मुले हे नदाः पीरजा प
सनप. जाहीसर ने हे नद
आदसपर्त लख जाने हे
ःसातपार संताने हे नदप
पापा मुजः हपाने हे

मांमहुसेनः साहामोरत
नाअलीहुनरतानुरनबी
महंमदमोसतफाः पोरः
तनः पाकः नुरनबी अंदेर
धमांमसाहाः हजरनारअ
सामहमदसाहाः हकुलाअ
लाहेघलालाहोमहेमदर
रसुलअलाहेः ाअेकल
मोअलकालनोः हमांसाप
डओतोः नेहाडेकुपरमोअ
आदआवेः नारेपरसताप
श्रीपुछेतारेनवापनोउतर
पछेः तोआंसोननाअे:
६

ताबरपा।।




بسم الله الرحمن الرحیم
بسم الله
لا اله الا الله
لا اله الا الله محمد رسول الله
یا علی

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

मोहोरनबुवतःवांमांनः
जनारजंगंगःमोहोरनबुव
तफरसरांमःजंमारजंनं
गःमोहोरनबुवतःरांमन
नारजंनंगःमोहोरनबुव
तःफरसनांजनारजंगःमो
होरनबुवतःबुधजना
रजनंगःमोहोरनबुवत
नफलंफीःनरंजनंगःमोर
तजाअलीः आज नफलं
फीःअजमुरीःपरुःपसनवी
डाडोलारंमहोःआसांमध

५

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

realpatidar.com

मोहोरनबूवतः जुड़ेतो
नबीमहंमदमगमरलस
मांहांः कोछागडछें मं वाओः
पाछलोः दूंनाघडीआरः होओ
तारेः मोहोरनबुवतजुवे
तोः छमांमहुसंगनेः दसके।
सालाद्वाणीफरलवाओः न
वासांजांनोः मोहुरनबू
वतः जु दरसनं करेतोः सा
हामोरतनामवलीः सलल।
लाहुोः आलहे वसलांमः द
सकोसालीद्वाजुः फलवा
ओः तवाञातपोहोरः जातां

मोहोरे नब्रपतः कुहेरसा
करेतोः तम्बावायेतोः नेव
नबीसहुं सहकमोहो नेक
कफलवाओः तमा पंचांत
नंपाकुकुः सरखा घोई पोण
ओःतो तेह लोघरेन माओः
मोमांकासः सरतां सरतां
मोहोरे नब्रपतः कहेदारक
रेतोः तमावायातेः क्रांमेः
कुपालपाडे मोः तेने रेहो
कवलकरतां मोहेलोमा
ओः तमासाहुवेदेहारेआ
पेः तमा नसतनसीवकरेः

एमोहोरनबुवतनोः बा
सोअतलखीछेः मोवख
तछमहेः नजुएतोः एक
दाडामांहे एकवारजुएः त
करतांनो दिनसखेतोः मो
दाडाआठमांहे जुएः एम
करतांनो दिनसखेतोः ए
कमहीनामांजुएः एमक
रतांनो दिनसखेतोः वर
सदाडामांहांजुएः एम
करतांवरसदाहाडामांहां
नोदिनसखेतोः छमंर[illegible]
हाएकवारजुएः तो तेहुनो

साहेब: लाखतनसीयकरे:
जे कांम करवा होतो: मोहोर
न थए वुत: वांसीने करे: ते
जे कांम करे तेहे मोहोहासल
थाए: तथा मोहोरनथवु
त: जोयाछु: सरव वेदरे माहे
कुंवां ते पाररुदरहीनां: कल
रहीन: साथो करीने नोछु
हु कला अलाहु इललाहो
मोहंमद रसुलला हे: १२६
पीरसा अलाहु करे हेमां
न हारहीमः अलाहु अकबर
न कुंनोः॥ ११२॥ अहं वतत

realpatidar.com

नदा:नमाजाहजदनेहिन
दा:आहाजारतनाक्षाला
नेहि नदा:पापापातम
नेहि नदा:ध्यानामहअन
होंसान न नेहि नदा:ओन
अनहाजिना नेहि नदा
:फोलफ्राईमनापरवार
नेहि नदा:दरतीआकाश
नेहि नदा:पपनपाणीने
हिनदा:आदसूरजनेहिन
दा:नपनमतारानेहिनदा:

[illegible]

॥१६८२॥

अठारे आरपन अपाने
हि नंदाः आरथ्या आरपा
ताते हि नदाः आरवेदः आ
कृते पन हि नदाः अगा
ना तेन ने हि नंदाः अन
देपने हि नदाः आदि अत
नध ने हि नदाः ओतरंद
थम्ह पुरथ पाछ पने हि
नदाः नपनाभिः आरम
अद ने हि नदाः अठाओ
से अक्रूरथा गिने हि नदाः

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

।। २८ ।।

ખાદર ખાડા ઉ ના ડું સલા
અ મોડુ રા ના મ ચાહુ
ઉગામડા પાડા અંમને દેખ
ને પાગ ટો ચાલાડું ને પાર
ખાડા ખાડા સરા મ દેખને
પાખાડુ મારે મે રખાન
ડુરા ને ડ ડે ઘા ન ચડા
ન ગડા ડુર સોં નડ ને
એ મા રલ ખાખા પરમાડા
ઓમા સે ખાવ સો

ઉગામડા ખાડા અંમને દેખ
નોટડુ ને
પા રા ખારા રામ
દેખ ના ડુ

આડુગાલ મન માલ રે
લડુ ને ખારા ને ખાવસો
જરા ચડ ડોદખાધો ડુ રસો
નડા

[illegible]

॥१६५४॥

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

लोमाहमाजद्दआहमाःअंगो
रपारकुआरहीनःअतगो
रपारअेाद्दरहीनःअतगो
रपारआहिप्यहीनःअत
गोरपारनअरहीनःअ
तगोरपारअनअहीनः
अतगोरपारअलाहुहि
नःनरअअलामाआह्म
ःनरअलोमाहमाजद्दअ
हमाःनरीननलाजःनवी
नूरअतगोरतमारहि

पा:अपा जातजेव्याद
रो।म:पछे व्यालम:अ
तूरगोाछुातजेछेकु:व्याल
फार नरीजना नराछुा
र: नरीज नतोरेहेज
तफुरी:अतसानेद्विप
जाहरी:हरीएताहाद
राव्याप तार:य तूरपे
दफोदा पाअतार:तजे
नरीजनतेनराफार:
यतूरनोगाजाद्दअव्याप
तार:आहाजछ:१।।आ

[illegible]

हाजनकुजाकुदुअला
अपतार: अेकअेकहे
अेना कुजापरपार: नप
नूरसतगोर: नरअम
लोजअआहा: सतगोर
जोहाहीन: सतगोरस
मअहीन: सतगोरनस
रहीन: सतगोरसाहेप
हीन: सतगोरअेहरही
न: सतगोरकुपारहीन
: सतगोरधजाजअआहा:

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ॥ ॥ ॥

2 [illegible]

जन जाऽ पानी छे: फरमा
णा॥ नःफ अजलाहिरवेहिमान
नरर हिजः अतगोरपान
फरमाः ओदरवजामजआ
माः आदपाअ पनराण
नाः नर अलोजाहिमाजदअ:
अतगोरपार फुफारदीन
:अतगोरपारओदरदीण
अतगोरपारआहिफदी
नःअतगोरपारनमार
दीनःअतगोरपारअमज

:अतगोरपीरअलोमोही
न: नरऋअलोमऋोहो
:नरऋअलोनरोजननोम
:नप्पोनूरअतगोरत
रोहोयो: नरोजनतेंन
रोकार: ५२पकोकोहोपा
अतार: के५परेहेअटेका
हूकाम: ऋपोऋपें
होमरमान: नोमेवेहूते
नेक्षपाल: त्रिपनापर
मातेनेंनेऋअहुकार: ऋन
होपरमामऋमाऋअलग:

Page numbering error.
Nos between 170 to 179 are omitted.
In the book after page 169 the numbering starts with 180 (instead of 170)

नरीनाथजाथे॥आचलगः
प्यरजाअतनपाचतरा॥प्य
रा:॥अनतकरोडी॥अप
तरा:रयीवाणानेपरत
पेद:अरजाअतपथने॥अ
जरनेद:प्यरजापीअन
पेदरा॥अपतार:पअए
कनेनोदापरवार:पअ
नेपा॥करजाअर:दरी
॥अपतारनअरजानर:
पेद पअआ॥अजरनेद:प
रजाटाप्यरजामारपेद

[illegible]

Page numbering error.
Nos between 170 to 179 are omitted.
In the book after page 169 the numbering starts with 180 (instead of 170)

नमाहिमेदध्याउरःधमा
नमापहरसाहिद्धःधमाम
अममाहिनःधमामनू
रसतगोरःअेदअमसमा
धिनसाहिनीःअेदनूरम
हामदःसतगोरसलाहि ।
दीनःसतगोरसमसम
दीनःसतगोरनसारदी
नःसतगोरसाहिब्बदीनः
सतगोरओदरदीनःसत
गोरफ्कारदीनःसतगो

रछेमामअसाःनरश्र
लामामामद्दआसाःनर
जनाःकुमपकीनानराण
ःतमारीनछेतेःतमाराद
अतरेःजुजनपदारनो
अरःमनामारापमालगो
पाःतधापपनीआ
कुपुलकरोःलीआलीना
रेनोकुपुलकरेःमारा
जरपारःपरपारआपे
कुपुलकरोःतमारुमा

एकनाआनाकुफुरलकरो:
तमारेकरसे॰तमारेद्वरसे
॰कुफुरलकरो:क[illegible]आमे।
नापे॰अनापेकुफुरलकरो
:तमारीआअना॰पास
ना॰कुफुरलकरो:हीसती
तमारीछेकुफुरलकरो:स
तगोरछेआपमआहा:न
रआसोपामाहापदमाहा।
:हलोपेलोहा॰पेलोहा:
माहापदरसुलनलोहा:

(3)

॥३०॥

हीधाश्रीमजमाहीसरनेपा
फजमादपानीछे:फर
मानजाापअमलाहरवे
हेमानवररहीम:स:तगो
रपाक्षपरमा:एदरवेमा
नसाहा:श्रादपासनप
नरीजना:रश्रलीमा
हामदआहा:सतगोर
पीरकुपारदीन:सतगो
रश्रोदरदीन:सतगोर

॥१८२॥

पारसाहेब्यदीनःसतगो
रपारनसीरदीनःसतगो
रपाअजाअदीनःसतगो
रपाअलाहा दीनःनरअ
सलाजसाहाःनरआलो
नरीव नाजः नपीनूरस
तगोरतजारीहापाःअ
हुकार आहनरीववनः हु
रा आहतः पोसानापी
लोद्धाअतःलांनेंध आघ
रारहाः लाल्मसाहरनाः घ

[illegible]

॥९८३॥

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

मारागः पनो टाने: प्यरमञ
रः पोद्मामी अरः ज्ञानो
नप्या: ज्ञादृजापी पाअत
रः पअउ पुनो दाःसरप
रः प्यरमापरपारः पाअ
हृपरपारः अपज्ञ तारः
अपुत ज्ञअपतारः तमारो
परपारः परेनोनः हरी
अहः नोनटनः कुमपाकु
ज्ञरः नप्यामाहामाद्दरमृ
नानोः प्यापा प्ातमाः

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

रहीनःसतगोरसाहेबअदी
नःसतगोरसोहेरहीनः
सतगोरकुबारहीनःस
तगोरछजाजसाहेः त
रमलीजाहाजदसाहेः
नरीजननकुजकीनार
एंगःतजारीनछतःतजा
रादसतरःजूजनरभार
रपहीसीःनरनारीप
लगोपालनाःपाभपत्री
साकुपूलकुरोःतजारेः

नापेकरीने· धनानेकुष्
लेकरीः तमारे अरपार
·परपार कुकुष्लेकरीः
कोलेपरपारे करी· आत
करआताः अनंतकुष्ले
करीः तमारापारानाहो
अतीः ध्याकनानानीकु
ष्लेकरीः अपअकतप
रपारः पाअनूपरपारः
परनापरपारः यतूरकु
पातजेः नरानतनातजेकु

[illegible]

मलाहि लाहिएले लाहि:
जाहि जहर रसूले लाहि:
॥३०॥
दोया औलिआ कुतीनेपा
जाण जाडपा णोछे: फरमा
नजा॥ पसआजालोहि रहे
जाननरर हीजा: सतगो
र पावपरजा: एंदरछे
जाजआहि: आदपास
नपनरीजना: नर आजा
जाहि जदआहि: सतगो

रपीरकुव्यारदीनःसतगो
रपासोहरदीनःसतगो
रपीरसाहिव्यदीनःसत
गोरपारनसारदीनःस
तगोरपारसमसदीनः
सतगोरपासलाहिदीनः
नरसेसलामसाहाःन
रसेलानरीननवामः
नव्या नूरसतगोरतमारा
दीपाःपरभजसाहनरा
ननद्यद्योकारःसेनंएकें

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

नूरपाणि: अनूरपेंद: फर
मदरमनाअरणानेंद:
धरमेतेअरणोआआर:
फरमतमेफरेफरतार
माआणाेकाधापाअ
तार:अफतरूपारपोअ
आर:नरीअनेतोफरत
पफरी:धआाणाकाप
रगाटधरी:आरमअकोर
आनेधरतीआाकाअ:
पपनपाणीकाधापरफु

[illegible]

॥१८५॥

अतारःअैआपिनआपती
भारअठारःआगाणीन
प्पजीआमहापरकारःमहि
दाणोपक जाहीपआणेरा
ःपोरनप्पेत्रणे·ध·जघीर
जाआःदअे प्पूणानादेगी
पाप्पःआतमृणाणेभ
नप्पारःआत्रताआरणे।
आआारःप्पाहिरपतादधो।
कारःताहागोणोरेदरा
आपतारःभेजघेएका

[illegible]

॥१२८०॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

realpatidar.com

णा: अकतना ा ली गाणी
नेणे जेर को दी ली गा: नती
सती आर: परना तारा:
जहे परी: सहरा पती: ह
हपती: सूरना राणी: नहा
आ आत पीना णी: नेणे
टा दी आ पीर पेहना पाणी
: आ पीर पेहे आे ाली आ ा आ
पा आ ा: एक ना ा ना एं आ ह
ना र: पीर पेगा पार: प
र सता ाना ला एक: गो आ

कुपत:आर जेनयः आ
रकोर खी: आर पार: मद्दि
मानाधाद: औदीजोआज
:दीपादीई जाजः हकुआत
जुनआतोजाः नरीननल
कमकीनाराएणतजुनेस
लाजः नरननकमकानो
राराएणः तमारीनईतः
दिरलोकः परलोकः दीपलो
कः जेरनाः परीनाः नम
नाः पमनाः हकुजदारः जि
जेद पारः मातीजोकुपू
लकरोः आलानरानना:

[illegible]

नाः सेदनरजाफाजादसंसा

नाः नरमअजाजाजमाफाः

सतगोरआनाफोदीनः स

सतगोरअजअदीनः

तगोरनसोरदीनः सतगो

रसाफेपदीनः सतगोरसा

फेपदीनः सतगोरसोदरदी

नः सतगोरकुपारदीनः स

तगोरधजाजआफाः नरला

जाफाजादआफाः नरीजना

ः नकुमाकी नाराएणः तजा

रीनधतेः तजारेदसतरः

भूजनरमेसरः पदाओ

ः नरनारीः पालनगोपाल

नाः पाजपत्रीआकुपूलकु

रोः तजारेजापसोजापे

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

||3||

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

૫ [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

जा॥ ममअजलाहरहे हेमानन
रहीमः सतगोरपात्रममाः
ऍहरषजाजअाहाः अाहूणा
अनप॰ नहो ॰ना॰नरअाला
माहाजहअाहाः सतगोरपीर
कुमारहीनः सतगोरपीरसो
दरहीनः सतगोरपीरअाहीम
सतगोरपीर नअारहीनः सत
गोरपीरअलाहोहीनः नरअ
अलाजअाहः नरअालीनरा
ननना॥ः नमा नूरसतगो
रतजाराहीमाः ई पानमाइ
अाहाजः॥हीअोना पात्रः

पुना ओधारः ओंकारना
अगीननाधारः आपहिंपंथ
रो आपतारः तने आपपसा
:तमारीपाया आपपसाः त
नेःतमारे आस आपापसाः
तने पाळपुनाधणीः तमेरथ
नारगोःपछिहम पन तणी
:तमारे पारःतमारा नर्वतेः
तमारे हअतरेः तमारी हर
गतिः तमारे हरीग्यानेः जे
कोई जुगनाहेः तीणो
णोः जे कोई पाईपाईपडीः
मनमी जोर हदेखगतिः तमा
राजदारजाहिः आपपरा

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

सरदेहे:ते आआसर:अपाला
मघणीतेहे:नपानूरअत
गोरपाअपरपा:ऐदरदी
पागआपा:तेनाआऐरे:न
रआलापापापदआपा:न
सनवनानरनकुनकुनार
णआपाअणधरे:तरीपअप
रपार:आपांनूरतनाआल
:तेनाराऐप्रनकुनपीआप
तार:आपादपाअनपतरे:कु
रे:पदानीओपाऐत:प
दानापूनापाश्रीकुपनकुरे:

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ॥ ॥ ॥

ा नपपाना चोटा छे: तेनू
णना छे: ते प्रपपाना उणा
छे: तेज लुणो:॥ नपपाना
जूनो नो: इअजे पाने भाषा
योनो: छोनाधाटानो छो
पा

There seems to be numbering problem in original book. After page 199, the numbering starts in reverse order till 191 and then jumps to 200

[illegible]

There seems to be numbering problem in original book. After page 199, the numbering starts in reverse order till 191 and then jumps to 200

॥१९८॥

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

पात्र॰ जा पूना। ओधारः अे
अटना। सूरीजन धारः जा
पूदे पेध रो। अपतारः
तने। अपाअपाः तपारी
पाया। अपअपाः तपारु
आजाण। अपअपाः तने
पानपुना। धणाः तनेरअ
नारआ॰ अद्दिद अपनत
णाः तपारेपार॰ तपारी
नर्छतः तपारे दअतरः त
पारीदरगाएः तपारे दर

॥२९५॥

दीपापाअजीरखेअरने
पाजनजाडानीःपाजद्वि
परेःपापपजपूजीनेःदीप ।
जणपाःदओदःपधओः
दजडीःदीपकडीःकोडीपद ।
जनीःफारजाजा॥पअज
लाहररेहेजाननररहीः
जःसतगोरपत्रपरजा
ःएदरधजाजआहाःआ ।
दपाअनपःनरीजनाः
नरआलोजाहाजदआ ।

:सतगोरपीरकुवारदीन:

:सतगोरपीरसोहदरदीन

:सतगोरपीरसाहिबदी

न:सतगोरपीरनसारदी

न:सतगोरपीरसमस

दीन:सतगोरपीरसला

होदीन:नरइमसलाम

साहा:नरइमला नराल

ननाम:नवानूरसत

गोरतमारी दापा:दीपा

नवादसाजाम होसेन

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

॥१९८/४॥

[illegible]

[illegible]

कव्रूलकरो: तमारे करमे
: तमारे दरजे॰ कव्रूकरो:
नरनरना तमारा होसती:
गोर नोरनी होसती: तमा
रा परवारनी होसती: मा
हादेवनी॰ आदमहवा
नी: होसती तमारुप्याउ
: नासानी कव्रूलकरो: तमा
रापाराणी होसती: गोर
नोरना आपनी होसती
: प्याहुसनासानी कव्रूल

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

॥१२८२ः

नाहामहदयाकुरः एनाम
नापारसाहकुः एनामन=स
सनापीजः एनामनूरस
तगोरेः सेद=ससनापीज
साहालीः सेदनूरनाहा
नहसाहालीः नर=सस
नामसहाः सतगोरस
नोहाहीनः सतगोरसम
सहीनः सतगोरनसार
हीनः सतगोरसाहीपहा
नः सतगोरसोहरहीन
ः सतगोरकुपारहीनः

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

र: त्रिजे दवार: फाती = औक
पूलफरे: = अलानत्रोन
ना: नफलफी = अपतार:
रत्ने अरपद्वाने = आलीह
द्वार: अरपेजपत्रिनतनो
फरेनीअतार: नपाजा
हाजदूरसूल: अफतपा
पाफातजा: हफआहा
मूरतना = अला: धजाज
हअनःहाअेन: धजाजने
न = अलाधद्वी: धजाज

॥२००॥

[illegible]

परःअगोर जामामआ
मा:नरअतनामामाइआ
मा:मध्लोएलोमाएल
लोमि:मोइरऋजला
ह:॥३३॥ ५ ॥ ॥

5 ईपाजपनमाणालेद्दा
नीःघनाह्नितारानोघःमा
णाह्नपाडीगातमह्नमोता
प्यापडःफारमानजा॥प्प
अमलामरहेमानतनर

॥२०९॥

रहीमः सतगोरपीरअ
रमाः अेदरवेसामसा
हाः आदपीअनप.नरा
ननाः नरअलोसाहा
मदसाहाः सतगोरपी
रफ्रपीरहीनः सतगोर
पीरसोदरहीनः सतगो
रपीरसाहेंमदनः सत
गोरपीर नसीरहीनः
सतगोरपीरसमसदी
नः सतगोरपीरसला

नादीनः नर श्रअलाम
आसाः नर श्रलोमासा
पहआसाः नर श्रलान
रीजनमासः नप्पानूर
सतगोरतमारीहीपाः
दीपानप्पाहआलाः तम
रेपार श्रापाः तमेछे
मा श्रामि छणकीधीः त
रेप्परमाःमीसनपमा
हिसरःअकतद्विपणः ता
हाथामेमरतमेपछः तां

तारेप्यरजानोअेअरना:
त्रणटोप्पिपिआ:तेटोप्पमा
प्यरजानो पूछपागआ
:तारेप्यरजानो नाराएणा
नापिआ:पाएकुप्येटोप्पे
जाना:ताहाएकटोप्पेपाए
कजाना:तेनोपआअरपि
आ:पेलोनाएलोकुलप
जाहे:नपाएककरोडीनप
:नाप्याअपिअअरपिआ
:नेणेप्यरजापासनपना

परपार पूर्ना: नेर घूपेद
नेपाएं के याना: = आस
तपथ नें = आधारे याना
: तेंम प = अमर थ = आ: २॥
पान ना पना एं ना कृतफ
नाहे: छपन पृरी ड लप:
नेधा आ थे = अमर थ = आ
: नेणे प्पर मा पास नप
ना परपार पूर्ना: नान
रपेद नेपाएं के याना:
= आस तपथ नें = आधारे:

[illegible]

नपेंनाराएणेघरहेरे
अपतारःपेलोकरतां
गनाहःपायकडीनपम
पेःरानापरेलोनेःअपर
पअाःनेणेपरनापास
नपनापरवार पूनःर
घुपेहने नाएके यालाः
आसतपपनेआधारे
मालाःतेनपअनरपे
आःशापतनात्रितानेगना
हः सातकरोडीनपसापेः

ભુજ તા. ૧૭ : રાતીય ત્વ-રિત ટપાલ સેવા યોજના હેઠળ એક ટપાલ પેટી કેમ્પમાં હેડ પોસ્ટ ઓફિસના પ્રાંગણમાં રાખવામાં આવી છે.

આ ડબામાં નાંખવામાં આવેલી ટપાલ અમદાવાદ, ગાંધીનગર અને ગુજરાત તરફના શહેરોમાં ઝડપથી પહોંચી શકશે. પ્રત્યેક પત્રોમાં જે તે શહેરના પીન કોડ નંબર દર્શાવવાના રહેશે.

આ ખાસ ટપાલ પેટી ઉપર પાંચ પીળા ચકચકિત પટા છે. ટપાલ કાઢવાનો સમય બપોરે ૧૨-૧૦ અને ૧૪-૧૦ વાગ્યા છે. ભુજના પોસ્ટ માસ્ટરે એક ખાસ યાદી બહાર પાડી આ યોજનાનો લાભ લેવા વિનંતિ કરી છે.

ઉપરાક્ત

ગુજરાતના ૨૦૫ કરોડની વાર્ષિક યોજના

ગાંધીનગર તા. ૧૭ : (પી.ટી.આઈ.) ગુજરાતની ૧૯૭૫–૭૬ ની વાર્ષિક યોજના ૨૦૫ કરોડ રૂપિયાની થવા સંભવ છે એમ મુખ્ય પ્રધાન શ્રી બાબુભાઈ પટેલે આજે અહીં ... હતું.

શ્રી પટેલ જેઓ નાણાખાતું પણ સંભાળે છે તેમણે કહ્યું કે રાજ્યમાં દુકાળની પરિસ્થિતિને કારણે ૧૯૭૪ ૭૫ના વર્ષની વાર્ષિક યોજનાના ઘણા લક્ષ્યાંકો પાર પડી શકયા નથી.

ઉચાપત ...

માંડવી તા. ૧૭: માંડવા ... ખીમજી મા ક શાહને ઉચાપત અંગેના ... ઠરાવી માંડવી કોર્ટ ના. ન્યાયાધીશ શ્રી પટેલે એ... ફરમાવી છે

આ કેસની વિગત એવા મતલબે નોંધાઈ હતી કે, શેરડી સહકારી મંડળી લી.ના માજી મંત્રી શ્રી ખીમજી માણેક શાહે તા. ૧૬-૮-૭૨ ના રોજ મંડળીના રોજમેળમાં રૂા. પંદરસો માંડવીના વેપારી શાહ બાબુલાલ વાડીલાલ ખાતે ઉધારી નાખેલ પરંતુ ખરેખર રકમ રૂા. પાંચસો એ વેપારીને આપેલ અને ચરમાં છેકછાક બતાવેલ આમ રૂ. એક હજાર... મંડળીના વાઉચર કરેલ આ અંગેની ... નીશ જીલ્લા રજી... મંડળીઓ ભુજની ... બાદ આ હકીકત

...કાર
...સંગીત અને
નિયમો અને
...ાણે જ રજુ
પૈકી લોક-
..., સુરતાલ લ...
...ગ આ કલાનો
...કાસ ઈત્યાદિ માહિતી
...કારની ક્ષમતા હોવી
...ંગીત ક્ષેત્રે શેરો શાયરી

... જ કલાકાર આ પદને ...વા થક નિભાવી શકે.

નૃત્ય

આ કલાનો પ્રખર અભ્યાસ કરતાં જાણી શકાય કે જેટલા શાસ્ત્રીય સંગીતના પ્રકાર નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા તેટલાજ પ્રકાર નૃત્યક્ષેત્રે અનુભવી શકાય જેમ કે કથ્થક, કથકલી, મણીપુરી, ભારત નાટ્યમ, હળવા પ્રકારમાં ગુજરાતી રાસ ગરબા, પંજાબી ભાંગડા, કચ્છી રાસુડા, ચાલકી પાલકી મટકી અને રાજસ્થાનાં ગુમર નૃત્ય આદિ નૃત્ય પ્રકાર કશાસભર રહી

...ત્રીય સંગીતમાં ...લેવામાં આવેલ પ્રચલિત પ્રકાર છોટા ખ્યાલ બડા ખ્યાલ, ઠુમરી તરાના ટપ્પા તદુપરાંત ધ્રુપદ અને ધમાર, કવ્વા - સ્પર્ધી ઉપરોક્ત પ્રચલિત પ્રકારોના અભ્યાસી હશે જ.

વાદ્ય સંગીત

જે પ્રકાર અને જે શૈલી શાસ્ત્રીય સંગીતમાં નિયુક્ત કરવામાં આવી છે તેજ રીતે વાદ્ય સંગીત ક્ષેત્રે માની લેવાનું રહ્યું. તબલા અને મૃદંગ આ બંને વાદ્યો પરસ્પર બાજમાં એટલે કે વાદનમાં સમનવય ધરાવે છે. છતાં લાગ ડાટ થપ્પી ચારા ગત પરન લગી લડી. ટુકડા

(અનુસંધાન ત્રીજે પાને)

... ચડવતા ખરા.
ખાસ કરીને મેષ અને કર્ક નામ રાશીવાળા અને એજ રાશીનો મંગળ ધરાવતા લોકો માટે જોખમી ગાળો છે. અલબત્ત જેમની કુંડળીમાં મેષ, કર્ક, કન્યા રાશીનો શનિ ગુરૂ સાથે ત્રિકોણયોગમાં હોય તેમને માટે હાલનો ગાળો અણધારી પ્રગતિ અને સફળતાનો છે.

સામાન્ય સંજોગામાં ચેથા સ્થાનમાંનો રાહુ માનસિક તાણ ઘણા પ્રમાણમાં ઉભી કરશે. બાકીના લગ્નો વિષે આવતા અંકે ચર્ચશું.

એઝલ તા. ૧૭ (પી. ટી. આઈ.) : સાત પ્રધાનોના બનેલા મિઝોરામ પ્રધાન મંડળની આજે પુનઃ રચના કરવામાં આવી હતી.

:राजाहरीचंद अजरपि
आ: नेणेपरमापीअ
नपनापरपारपूंजाः
जोजरपेदनेपाएके आ
ला: आसतपंथनेआद्य
रे: तेजप अजरपि आः
रा[illegible]जोनाद्योपापरलोग
जाते: नपक्डजपसाथे
अजरपि आः लेणेपर
मापीअनपनापरपा
रपूंजाः आजपेदनेपांए

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

॥२०५॥

साहेबजा पूछे: ते जपना
स आप. वारपार जाग
जा भूकाणे: ते स आप जाग
रग ते जा भूकाणे: ए पर
ती त ज पतजा रोछे: एज
ने पाप न करे: ते पाप
न करपा णे छे: जाण
सतपंथने जाधारे: जा
परपेहने पाए के: एजप
ने पाप न करे: से ते से
ते मा से नी: कोलकाएम

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

॥२०१॥

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

घोनिगर: दीपानव्याद
आलाः तजेधनाष्याकसण
हर: सतगोरदीजानआद्व:
नरश्रलोजाहजदआद्व:
हफलोएलोहिएललोहि:
जाहिजदूररसूललोहि:
॥३४॥
दीपीलापनेघोनाद्विसार
नाछे: फरजानला॥ष्याअ
जलोहिररेहिजानररहीज
:सतगोरपाव्यरकमा:

ऐदरवेजाजमसाहि:आ
दपीसमनपनराजना:न
रआलोजाहिजदसाहि:
सतगोरपीरफुवारदीन
:सतगोरपीरऔदरदी
न:सतगोरपीरसाहिब
दीन:सतगोरपीरनस
रदीन:सतगोरपीरअ
सदीन:सतगोरपीरस
लाहिदीन:नरआसलो
जसाहि:नरआलोनर

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

॥२१०॥

[illegible]

[illegible]

॥२११॥

फरडी फे नरनेतपे करीने
मापफरेः पापफरेडीसू
परेलोमने तपेफरीनेमां
पफरेः आतफरेडीसूत
रामदने तपेफरीनेमा
पफरेः नपफरेडीसूने
नेरमने तपेफरीनेमा
पफरेः मालफलनेगा
माहिः प्यारफरेडीनागो
रःपारओ।दरदीननेः त
पेफरीनेमापफरेः लपे

realpatidar.com

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

जोगीनाः तजेलपूनाते
रणहारः अतगोरआवे
हाहीनः अतगोरअजअ
हीनः नाहीआतीः अतगो
रनआरहीननाहीआती
ः अतगोरआहिपहीनन
हीआतीः अतगोरओह
रहीननाहीआतीः अतगो
रकपारहीननाहीआती
ः अतगोरछजाजआहा
नाहीआतीः नरजपानो

॥२९३

[illegible]

भाहामदइआहाःसतगो
रपीरपुप्यारदीनःसतगो
सतगोरपीरआहाद्दीन
रपीरओदरदीनःसतगो
रपीरनआरदीनःसतगो
रपीरअजअदीनःसत
गोरपीरआलादीदीनः
नरअमालाजआहाःनर
आलानरान ननाम:न
प्यानूरसतगोरतजारी
दोपाः॥आहाअमालःअ
हाम्योद्दाःआहाप्पालेकु

॥२१४॥

[illegible]

अतारःआहागोफारः
आहापरवरदीगारःआहा
फालकःआहाफैलःआ
हाश्रीजहुरःआहाश्रीकै
रमःआहाश्रीपारारः
आहाश्रीनरआर्धःआहा
श्रीपालनःआहाश्रीफ
रसरानःआहाश्रीफर
अनःआहाश्रीफैद्धःआ
हश्रीनफलफादसभा
अपतारःआहाअला

॥२१५॥

पअजेदीः नरअअजाज
आहादाताः नरआताम
हाजदआः हकफारजान
तजाराः आहिपपनाप
औहजाराः जेहिरफरेः
ननरधरेः फजअजाए
तजे परपरेः छटजाएत
जारीफजाद्दरेः अग
जअगासरः धानधाने
नफजअजापूनाः रधमे
परजाणः अपाजीतजेअ

नाथदेवःरहेमानरहे
मःतमअदाएनरीननान
राखारःहूपरमानकीअ
खारःतमेओलाआःतमे
अवाआःतमेआलाप
रपेगाप्परःएअरपेरमन
तमाराछेःआसतपंथ
माराछेःअपामातमेअ
माफीःआदेपमेरतमार
फराआदेअमाराःफरा
आदेअपलेनाःफराअ

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

॥२९७॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

दीनना:पानताअतगो
रअजअदीननी:पानती
अतगोरनआरदीननी:
पानतीअतगोरओदरदी
ननी:पानतीअतगोरआ
मिव्यदीननी:पानतीअ
तगोरकुव्वारदीननी:
पानतीअतगोरधनाम
आहानी:पानतीनरअ
लोमाहामदआहानी:अ
दनरीजनातंमेजपनेक

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ॥३५॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

प्यरमाः ऐदरर्जाजआ
हाः आदपीसनपनरा
नाः नरसलाजाहाम
दसाहाः सतगोरपीरम
प्यारदीनः सतगोरपीर
ओदरदीनः सतगोरपीर
साहेब्यदीनः सतगोरपी
रनसारदीनः सतगोरपी
रसमसदीनः सतगोर
पीरसलाहोदीनः नरस
सलामसाहाः नरसाल

नरोज नाम: नव्वा नूरस
तगार तमारी हीपा: मार
पान. प्पा दुआ मिरफरो:
फन लकरो: फरअत फरो:
रेजनानजरघरो: फूडी
प्पलोहफिकरो: मोलता
नगापाडीफरो: मप्पा
मूसा फरना: पाटेनूर
साहरणा करो: जमेना
गाताकरो: कोमनागा
ताकरो: साहिपपाटस
घटफरो: घटमांतमारी

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

परीःप्यारगोरप्रदीयहने
धाआःतेजपआमरापर
माएिःआऽआठतीरपनाप
मलोामतेःपटललोएितेः
नेपारकोमःमसीसोलो
नाःनेपनमरघरोःकआ
आनापआटालोःएिजप
नेफोधाधोनाप्यकसोःमा
माधोनानकरापसोःपा
मसातनपप्यारःतेतीअठ
रोडीनामेमाआालोःल
पमोमाआलनापेरारालोः

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

॥२२१॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

અલી:નબીનુરઅતગો
ર:નરઅઅલીમઆહાદો
તાર:નરઅલીમાહામ
દઆહામેલોના:નાબુ
દીપના:તમેઋપુનાતાર
ણાહાર:અતગોરઈમામ
આહા:નરઅલીમાહા
મદઆહા:હજુલાદેલા
હાદેલલાહી:માહામ
દરજુલલાહી:॥૩૭॥

१८

दीपाळपनेघेनाहिता
लाछे:फरमानळा॥प्य
भलाहिररेहेभानवनरर
हीभ:सतगोरपाव्रप्यर
भा:एहेरईभालभाहिा:
आदपासनपन्नरीजना:
नरअलाभाहिभदसाह
:सतगोरपारफ्यारही
न:सतगोरपीरसोहरदी
न:सतगोरपारसाहिप्य

॥२२३॥

दीनःसतगोरपीरनसार

दीनःसतगोरपीरसमस

दीनःसतगोरपीरसला

इ।दीनःनरइसलाम

साहाःनरइलाजाहाजा।

हसाहाःनरइलानरी:

जनलामःनपानरसत

गोरतमाराहिपाःपरप

मइआहनरीजनधधोक।

रःकरणाकलपमाझरीज

नहारःजपपनलाकरी

[illegible]

realpatidar.com

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

आरवपाण आरपाणनी
दोपाः आरवेद आरकेते
पनीदोपाः नपलपता
रानीदोपाः दुदुमउलनी
दोपाः आतआफिरनीदो
पाः नपसेनपाणनदीउ
नीदोपाः आतपरसतां
नीदोपाः अनतपुरोडी
करणनादेपनीदोपाः न
पनाखआराशीअधनी
दोपाः अठाशसेसेतु०

रसीनाहीपाःठेकुनोम
नेठेआहजारः पीरपेगा
म्बरःनाहीपाःनपाकुरे
डीजाम्मनाहीपाःछपन
कुरेडाञुजेमानाहीपाः
पन्नीअकुरेडीकेनांरना
हीपाःपामकुरेडाञुपरे
गाजनाहीपाःआतकुरे
डीअकनीअहनीहीपाःन
पकुरेडीञुंजंनेटलना

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

॥२२७॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

॥३८॥ ॥ श्री ॥ श्री ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

न:सतगोरपात्रव्यरजा:
ऐदरईजाजसाहा:ऐा
दपासनप.नवीनना:नर
ऐलोजाहाजदसाहा:स
तगोरपीरकुव्वारहीन:स
तगोरपीरओहेरहीन:स
तगोरपीरआहेमहीन:
सतगोरपीरनसीरहीन:
सतगोरपीरसमसहीन:
सतगोरपीरसलाहेहीन
:नर ऐसालाजसाहा:न
र ऐलानरीनननाज:न

० प्यानूरसतगोरतमारो
दीप:आ।हा।आलो।म=आ
लेफम:नप्या=आ।लेफमम
लो।म:पेजो।लो।नो:पन
लेफरे:पेहलेफरे:पेफ
हमतफरे:पेन्हरी=अत
फरे:=अलोहफतमे:=अ
लोपाफतमे:=अलोहीन
तमे:=अलो।आदीतमे:=अ
लोप्यालेफतमे:=अलो
=अदरतमे:=अलोईमात

realpatidar.com

[illegible]

तमें:ॐअलानकलक्षातमें
:ॐअलानाराणिणतमें:ॐअ
लाहमनरततमें:ॐअलाहम
रतॐअलातमें:ॐअपलॐअ
ला:ॐअाब्मरॐअला:मा
हिरॐअला:पातनॐअला
:पारनजेलाणा ॐअला:
गृजरगारहेना ॐअला:न
णपोरेकृणतारा ॐअला:
योथेपोरेपारसितारेॐअ
ला:नाप्रुहे पेतमतरमा

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

पमोरस्ला।नीपाडीहरीक्र
रे।:आगरेपः मगारेपनी
पाडीहरीकरे।:ध्आ।आहि
पमो।लताननीपाडीहरी
करे।:ध्हा।आ।हिपतमारे
नगारनीपाडीहरीकरे।:
ध्आ।आहिपतमारानन
तनीपाडीहरीकरे।:ध्आ
आहिपअलाम•आअला
मनीपाडीहरीकरे।:हमे
रेनामतामोतीआकुता।:

तमारे दरयार छि आः साड
साड फरे तो माछि: कुकुरे
तो=आछि: गाटेयादीलप
डी: आसामेमेदीरी: तास
दीरेमाछि: ध=आआसाक
नलनफरे: ध=आआसा
रेमफरे: ध=आआसामे
रफरे: ध=आआसाफरम
फरे: ध=आआसापफरम
परमरे: ध=आआसागृ
नापरमरे: ध=आआसामे
नन पमाफरे: ध=आआ

॥२३१॥

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

realpatidar.com

हाम आसतगोरसमनअहू
नना:हाँसतीपीरनसार
हीनना:हाँसती पीरसाहे
प्यहीनना:हाँसती पीरसो
हरहीनना:हाँसतीपीरक
प्यरहीनना:हाँसतीसत
गोरर्घजाजसाहाना:हाँ
सतीनर=सलाजाहाज
हसाहाना:हाँसतीसैन
सैन्नहासैनाना:फालफ
ऐजनापरपारना:हाँस

तो ऐक लाख. ऐंसी हजार:
पीर पेगांबर नी: दोआ ती
सात फरसताँ नी: दोआ ती
नपनाथ. मोरा आसद नी
: दोआ ती अठासी. सेतनु
ना नी: दोआ ती सातसा
र नी: दोआ ती नवसे नवा
ऽऽ. नही दुनी: दोआ ती सद
सूरज नी: दोआ ती नवलें
ष तारा नी: दोआ ती अस
ट कुल परबत नी: दोआ

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

अफरोड फेनरनी:हासती
पासफरोडीभूपरेलाजन
:हासतीआतफरोडीभू·म
रीसहनी:हासतीनपफरो
डीभू·ज नै टभानी:हास
तीप्यारफरोडीभूफजम
फुआरनी:हासतीआनत
फरोडीभू·पारमसनआ
मानी:हासतीनजीआ
फासनी:हासतीपपन
पाह्णानी:हासतीजम्मा

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

नमो:अनदेपनो:होअती
नतीअतीअतोजीनपनो:
पैदः
होअतीसारव्याण:सारप
णनो:होअतीसारव्यांण:सा
रकतेप्यनो:होअतीआतप
रने·अतापाअनप्येत्रनो:
होअतीपनरतपने·प्यार
करणनो:होअतीनपगरे
पनोतीनो:होअतीअड
अठतीरथनो:होअतीदसे
दसाहिनो:होअतीनीणा

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

रअराजतजेः आहाजीर
जतजेः आहाजीकरसन
तजेः आहाजीषोद्यतजेः
आहाजीनकजाकातजेःह
अजाक्षअवतारःहकजोल
लाःआहाजीरतनाक्षल
ःतजेजपूनातारणहारःक
रीजनवानूरअतगोरःज
हाजइजोआतवानूःअपात
वावीजातजालाःहकता
लाकवूलकरोःएवद्याना

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ॥ ३९ ॥ ॥ ॥

92 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

सतगोरपात्रप्यरमाःऐदर
धीमामसाहाःश्रादपीसन
प·नरीजनाःनरश्रपालीज।
हाजदसाहःसतगोरपारब्र
प्यारदीनःसतगोरपारसो
दरदीनःसतगोरपारसाहे
प्पदीनःसतगोरपीरनसा
रदीनःसतगोरपीरसमंस
दीनःसतगोरपारसलाहे।
दीनःनरश्रसलामसाहाः
नरश्रपालनरीजननामः

नव्यानूरअतगोरतमारी
होपाःअपामीऋाहतमेः
हिनाहतमेःआकाहतमेःऋ
प्यहतमेःअप्याहतमेःतन
तमेःप्यप्यतमेःध्रुतमेःप
उतमेःररतमेःनरननतमेः
नरीननतेनराकारःपेहा
कोहीमूरतमारःअप्यहेमा
अरनोअअमारःऋाहेअरन
मारप्याणःअतूरमूरतप
रतीपाणःतारेप्यरमाधि

आपरमाआ:दिपनापडते
नपनेआमः श्री आआणवे
ठारमा: क्रोधक्रेनेपअमन
कुन:नराएगोरनेकुदिपंर
गेना।
मीना: नधअतगोरेक्रोध
नाण: एक्रेपअनानानासे।
ए: पेधनानानोकराहोवे
:धनानानेआलोअतप
पे: पेधनानापडीआप
द: परनाणातेपानाधरमे
:मकुरातेदिअरपेठाकुरमः

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

realpatidar.com

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

तेअजरापरगआःजक्र
रातेफिराजारहाः२॥देपा
परनेगोजा॥दिवानेवा
णःनेणेगोरनोरकीधापर
जाणःआजपेदेदेवाडाध
रजःतेजपअजरपेआ
नेछुटाक्ररजःजानातेअ
जरापरगआःजक्ररातेफे
राजारहाः३॥आजक्रन
नेगजानरेनेवाणःने
णेगोरनोरकीधापरजाण

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

:सताप्ररोण अपतणीः तमे
पाद्वोदर्शत स्त्र आडोः तमा
राज पने अपतमाणजा
हिपाध्रटाडोः तमे जाणीने
तमे पछाणोः छोडावीज
ण जपने मारगे आणोः
आलो नपाः नर असलो
जसाहाः सतगोर सोहरदी
नः तमारे पाए क्रोः तमारो
गान सक्रोः तमारो पाडोः
तमारा नाम नूर नाहो सतीः

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

पधनोहोअतीःतमेजपने
नेफनजरधरेःतमेजपने
जाणोःतमारेपारभाणोः
नपीनूरअतगोरपात्रपर
जाछ॥अतगोरछजाजअ
हःनरभजजाहाजदअ
॥हफजोणेजोहःणेजजोहेः
जाहाजहररधूजजोहेः॥
॥ ४० ॥

होपाजपंजेपाजधडपा

ष्ण नाम्निठा अर्णः फरमाण्णा
ष्य अमलोफ ररेफे माणन
नरफी मः सतगोरपात्र ष्यर
मः ऐद्रर्ख मामआफः आ
द्पाअनप० नरीण नाःन
रअलोमाफामदयाफः
सतगोरपीर कुष्यारदीनः
सतगोरपीर ओंदिर दीन
ःसतगोरपीर आफि ष्यदी
नः सतगोरपीर नसीरदी
नः सतगोरपीर समासदी

नःसतगोरपीरसलाहिद्दी
नःनरश्रीसलामसाहेबःन
रश्रीसलामनरीजननामःनव
नूरसतगोरतमारीदोयाः
सपामीतमेश्रीआदःनरीजन।
नराकारःऐदीफकीरमोमस।
रःपेलोसरजामारेमाणः
सतूरनूरतीपरतीपाणःस
तूरनूरतथीपासतारःसतू
रनूरतपेदःसमरामारःत

मनवीन नद्धरा अपतारः

नरनारी नोऐकपसारःअ

पाजातजेअतगोरनेसोपा

धरमःरसाअतपधनेछिता

राकरमःनवाभूरतेधरोअ

पतारःअकतरूपानसोअ

आरःजाअारसाअनतअ

पारःतजेनवीनसूरीननर

रःधेऽसाएताजानपअप

तरोःऐकपाअलोजतापे

राफारोःजोनरवेदेपूरी

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

४
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

नरअलीमाहामदसाहा

:सतगोरपीरकुब्बारदीन

:सतगोरपीरसोहरदीन:

सतगोरपीरसाहिब्बदीन

:सतगोरपीरनसारदीन:

सतगोरपीरसमसदीन:

सतगोरपीरसलाहिदीन

:नरअसलामसाहा:नर

अलीनरीननना:नम

नूरसतगोरतमारीदाय:

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

तीजाहिअंरंजाअाःअतरभूर

त·नरजन·तजेडिपाअाःडि

दुवीनवाणीजाहिःजपअ

पतरेः ऐकपाअलाअफेरा

फरेःआजवेदेपूरीआाअः

फेराटाजेएेकपाअलाअः

त्रणादेपनेअक तीआारःतजे

नरीजन·धराअपतारःत्र

णादेपभकारमोअतपधःतेथा

छूटेजपनाफेरापादःनर

तजे·नाराऐणातजेःधनेगा

रछडिअजेःअपाजादना

पगजोतजे: ज्ञिणी आआ
मारीछह्रि अजे: तजे अल
नरीजना: नर अआलाम
आहाहातार: नर अलाम।
हामहआहाजोलाना: तजे
फरो अनतफरोडीजपने।
नसतार: अलीनरीजन:
नफजफानाराएण: तजपा
छटेपडनेपराण: पीरअम
आपाधरजपरजाण: पीर
ओहरदीनपा: जपनानर

पाणः॥ पापआ।हाधा॰नर
पाहापह्आ।हाःतपेफरोज
पनेपरपाणः॥टाडोजप
नेक्षिहृप्याजमीणः॥आहृप
अनप॰नरजनाःनम्रपप्रा
नाराएणः॥नर॥अअलापस
हाद्दणाःतपेअताफरोछेज
पतणाःतपारो॥पाडोःतप
रोपाडोःतपारोपाडोःएज
पने॥ओहृप्याजमाणापाहे
पाफडोःतपेजाम्हृपना

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ॥ ४२ ॥

हुमे सोथानरेनत्माज्ञान:

(१५)

जपनेछिठाअणे: पारमानज

गाप्यअमाराछारहेतेमानत

ररमीमःअतगोरपात्रप्यार

:एहेरघेमामआहाःअहेप

अनप.नरीननाःनरअट

माहामहेआहाःअतगोरप

रपुप्यारहीनःअतगोरपीर

सोहेरहीनःअतगोरपीरम

हेप्यहीनःअतगोरपीरनम

रहीनःअतगोरपारअनअ
हीनःअतगोरपारअलाहि
हीनःनरअअलाामआहि
ःनरअलीनरीजननामः
नपीनूरअतगोरतमारीहे।
पाःअपाम अादनरीजन
तमेःअगाम अगोचरमात
मेःभानभानेत्रमातमेःकरण
करामतमातमेःजागजाग
त्रमातमेःअांसणअत
ममातमेःदे आनमातमेः

धद्धोक्षारजातजेःछेरजात
जेःपरजात जेःनवलखरजा
तजेःप्यारमरजातजेःतजेन
णातातमारोजपःतजेछिपन
आपोआपःअपाजातजे
वणद्दपछिपाआःकरीआप
तीनेअरजमाआःतजेअ
रजआरेप्याणःअरनाप
रनेअरजापराणःपछेअ
जआरजपाणःपाणीपाक्र
पाअतारःअरजापेहनेआ

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

परमाणाः अरनाअतपथ
मेंवापाधरमः ईमानाळ
नेंआपामरमः पेईमाना
अरपेंठाफरमः आपरपेंद
नीपूरीआऴः फेराटाको
एकुपाअलाऴः आदनर
हरीनाराणः परमापाअ
नप.माहिअरः व्रणअरना
पराणः नरननकुनका
: आला आपतारः तमेकाधा
आपापेदपाअतारः आ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

अहीनःअतगोरनआरहीनः

अतगोरआहिमहीनःअतगो

रओहरहीनःअतगोरफम

रहीनःअतगोरईजाजआ

हाःनरआलाजाहाजहआ

हाःकफजीलानाःओलताल

पारानाहीणाःतजेअताकरो

एकपतणीःतजारोपाडोः

तजारोपाडोःतजारोपाडोः

एकपनेजरोलमाणजाएं

पीपाडोःएकपलेमसोरा

आफेरापरे:नरेन अपु
जाब्जापा ब्रपतरे:अतजे।
रप्परजा: ज्रोदरर्छजाजअ।
हा: ज्ञादपाअनप•नरज्ञ
लाजाहाजदआहा:हपजे
लानादातार:तजेजपूना
तारणहार:फरगाराफ्रानद्
रे:अजराआरफरे:पार।
नाजरदतजेछूटाडा:नरे।
नप्पाणराजाफिपाफ्राडा:
जापूदेपने•जरपप्पडक

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

:अतगोरपारआफिप्य हीनः
अतगोरपारनअरीरहीनःअ
तगोरपारअजअहीनःअ
तगोरपीरअलाफीहीनः
नर॥अअलाजआफीःनर
॥आलीनरीनननाजःनव्वा
नूरअतगोरतजारीहे॥आ
:।।अपाजातजे॥आदनरीन
मानराफ्रार॥अकुफ्रारपी
अकुपाअतारःप्परजाप्पा
अनपःजाफिअरःअफ्तीआ

र: तमे नरीजना ७८६ पेकर
तार: तमे श्री जदक्ष: तमे श्री
क्रीरतनः तमे श्री पाराः तमे
श्री नरआई: तमे श्री पाज
नः तमे श्री फरसरामः तमे
श्री रामः तमे श्री क्रशनः
तमे श्री बोध: तमे श्री नक
लंकी: दसअवतार: न
र अ अलीआजआहाढातार:
नर अ अलीआजआहाजदआह
:तमे जपूनातारणहार:

जाप्रदेपनेः नरथाअडेःप्रु
आरफाप्रत्रने आअतप्रे
ःअपरपेद अृजापनोफ
रोपेपारःहपेशहाथासेए
फाफारःतजेरयोअतजाद
नःपरोपअजनेपरदातारः
अरपेज नोफरोनाअतारः
अपाजातजेफालाणाजप
नेतारोःअरफआजरापर
जापेआरोःनरआलाजाह।
जदआहाःअतगोरशजाज

आहानो द्योपाः सतगोरपार
फकारदीननो द्योपाः सतगो
रपारसूरदीननो द्योपाः
सतगोरपारसाहेपदीन
नो द्योपाः सतगोरपारनस
रदीननो द्योपाः सतगोरपा
रसमसदीननो द्योपाः स
तगोरपारसलाहादीनना
द्योपाः नपानूरसतगोरः
नर॥असलामआहातना
री द्योपाः॥आदपासनप

[illegible]

एजपनेआरआणजाहथा
फाडेःएजपनेजरतलोफ
नेआआणथाढडेःरपा
जनुमनेजफानेपोआडेः
अतुरपेदुरीआमःफेरा
टाजोओराआलोमःआहे
पदोअतीतजारीःदोअतीत
जारानाजनुरनाःदोअतीत
जारानाजफाफणनाःदोअ
तीतजाराःफरजधरजनाः
दोअतीतजारीआलःओ

[illegible]

माडाःमा॥आनूफरमणदश
छोडोःएजपनेमारेमाण
नापापत्रोडोःएजप॥अन
तपार॥अपतरेःतेफेराना
फरमण दनछोडोःअतगो
रछमाजमाफ़ाःनर॥अलो
माफ़ामद्दआफ़ाःनेफलोण
जपनूपउपडःतेजपना
फलगोत्रमाफ़ेः॥अंफोतर
ओमाएनाःएफोत्रओम्मा
पनाःआतफलआअरा

[illegible]

सातनपप्यारःतेत्रीअप्करार
नाजिमाहिमाडेःनमयारा
श्रीनाफिरारालोःअघमान
जातसूदिहारअालोःअपिर
पेदमाहिःअालोदअमाअप
तारःनरअअलोमआहहि
तारःनरअलोमाहामदअा
हामोलोनाःमामूदेपना
श्रोनतानःतमेलपूनातार
एहारःअतगारहमामआहि
ःनरअलोमाहामदआहाः

[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

रखोहिरहीनःअतगोरपीर
आक्रिप्पहीनःअतगोरपीर
नआरहीनःअतगोरपीर
अजअहीनःअतगोरपीरअ
जाकोहीनःनरअअलाजआ
हाःनरआजानरीनननाम
ःनप्पानूरअतगोरतजारी
होपाःअपाजातजेजाहिर
आहिजारःप्पाजफनाप्पाह
आःतजेआहिाजोजाछःतजे
आहिाजोझारजःतजेआहि

ओधाराःतमेआहाओनर
आधःतमेआहाओधामनः
तमेआहाओफरअरामःत
मेआहाओरामःतमेआहा
ओकरअनःतमेआहाओ
बोधःतमेआहाओनकल
कोदअमाञ्पतारःनरञ्
लोमाहामदआहाःमोला
नामोलतानःतमेजपूना
तारणहारःमेजपनहिना
अणकरोःतेजपनेमला

[illegible]

गानीकुफूलकरोजःहे
अतीनरःआअलालआहे
नीःहेअतीहअलाःअप
तारनीःहेअतीकोलर
भेअर॰गतगागानीःहेअ
तीजभीजूआपारनीःआ
नफलनेगालानपीएःते
गारनोरनीहेअतीःनती
अतीअतोकोनपनीपान
तीःनेनपःआअनारोभेः
तेनपनेतनेकुफूलकरो

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

आदअनतक्रोडीदीपनोः
फरीआदनपाछक्रोडआ
प्यानोःफरीआदछपन
क्रोरोडीजेध्यानोःफरीआ
दफत्रीसक्रोडीक्रेनरनो
ःफरीआदपासक्रोडीसू
परेलाभनोःफरीआदअ
तक्रोडीसूतरीसदनोःफ
रीआदनपक्रोडीसूभ
केटफनोःफरीआदप्यार
क्रोडीसूक्जफाक्रुअरनोः

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

॥ ॥ ४५ ॥ ॥

होपीआतजीप्यापनधारा
नोःफरजानजा॥प्यअजाना
फररेफेजाननररफीजाःअ
तगोरपान्नप्यारजाःएदरचीजा
जआफाःआदपीअनपः
नरीजनाःनरआलोजाफा
जदआफाःनंरींजंनंनांजंः
नंप्यां नूरंअंतगोरंतजांरी
होपींःअतगोरपारफप्या
रहीनःअतगोरपारओदर

हीनःसतगोरपीरसाहिपही
नःसतगोरपीरनसीरहीन
ःसतगोरपीरसमसहीनः
सतगोरपीरसलोहिदीनः
नसील नबीन
नरःससलोमसाहिः नबा
नूरसतगोरतमारीदीपाःस
पामीमेरफरीजपनेःतमारा
पगनेपरतापेफरीनेःजपने
मेगताद्वारफरोःसमीरने
हवेमनणेफरीनेःएजपने
रपामडमपेयाडाःनबा

नूरअतगोर: नरअ्पलोम
आहिदातार: अतगोरअल
हिदीन: अतगोरअमअही
न: अतगोरनआरहीन: अ
तगोरआहिप्पहीन: ओहर
हीन: अतगोरपुप्पारहीन
: अतगोरईमामआहि: न
रअ्पलोमाहिमदआहि: त
मेअ्आहिपाअनपनाराएण
पालोपलोएतनापअनारा
: मूलअधान नामोगार: मा

पृदपनाओलतानःलपृ
नापरहातारःतमेतमारीप
आपाओःजारेत्रनटोमह
ताःतारेतमेपायाहीःआन
तेपायापाओःतमारेफर
मेःतमारेघरमेफरीनेःतम
रेअतेःतमारेहतेफरीनेःत
मारीमामाएफरीनेःअता
फेफरीनेःतमेमेरनानलर
फरीनेःएलपनेप्यापनप
टापोयाडाःनेमनपाएर

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

पगानेपरतापेपुरा नेःऐनप
नेप्यापनधारीपोआडेःर
पोज उम्मापाम=आपोः
मारव्याणतनापेराराम्मोः
नर=मातानरीजना·नकुज
फीनाराएणःहमना=मपत
रःमतगोरपात्रप्परनाःएह
रद्दनानमाहाःनर=माते
नाहानदमाहाःनोतोना
तनेजपूनातारणहारःएज
नाकुजगोत्रनाहेःएक्रोत

२५७

[illegible]

पनूह्रिठाअछकप्पूलकरोःए
कपनेप्पापनघाटीनाहआ
पपसूकापोःफलाणाकपने
पतपडोःतेनेपायआतःनप
प्पारःतेत्राअकरोडीनोजेप्पे
आलोःलप्पआेराआनोपे
रोटाप्पोःअगाप्पानजातसू
देहारआलोःआजरापरजा
पाअपुरोःअताह्रिनाआेाप्पत
जाराप्पोःरप्पाह्रिनेराजआ
पोःअतगोरपात्रप्परजाःए

[illegible]

अर:अेदुआफिप्पदान:अेदुओ
अतप्राजो:अेदुप्पानप्पापा
जो:नक्रलोएजलाफि:एजलोफि
:जाफिजदुररअूललदे:॥
जेरपजूतनाअेाक्रो:परात
नाअेाक्रो:जेरूपारअतोफि
ए:अनराछलनूपोप्राप्रू:
नप्परार्छलफरअतानूपो
प्रापू:जेक्रार्छलफरअतानू
पोप्रापू:अअराप्तीलफर
अतानूपोप्रापू:अूरपार्छल

[illegible]

राम्रीःप्पापनघाटीनाहिस
प्पपारीनेःरपाज ३ जमापा
सम्आपेःप्पापनघाटीपार
इतारेःआतघाटी तेप्पापन
घाटीजाहिः नप्परावेलनूपे
मापूःऐजापनूनपजोनूफा
फुलप्पाधुधेःनप्पानूरसत
गोरःपारसजसओटःपार
नसरदीनःपारआहेप्पदी
नःपारओहरदीनःपारक
प्पारदीनःपारवेजाजसा

[illegible]

कुःऐजमनो पर पडो·तन
अनतकरोडीनाजेमाजार
थोःजथाकजमाकुअरनो
टीमाजाराथेःजथाजोन
तातनाटीमाजाराथेःअप
जाजोरछापतजाराछेःअह
ःअतगोरछजाजआहाःन
अलाजाहाजदआहाःहक
जाएलाहा·एलालाहेःजाह
जदररअलालाहेः॥ ४५॥

१८ दोपाळपनेठिठाअणेपअतन

२७९

छः फरमानमा।।पअसमला
मरवेहे मानमरवही मः सत
गोरपीरपअरमाः ऐदरवीमां
मआहाः अलीपासमप-
मरीमम माः मर अलीमाहा
ःसतगोरपीरफेपीरदनःस
तगोरपीरओदरदीनःस
तगोरपीरसाहेपदीनःस
तगोरपीरमआरदीनःसत
गोरपीरसमसदीनःसतगो।
रपीरसलीहोदीनःमरअ

मलोमस्माहा:नरस्मातनरा
जननाम:मप्पानूरस्मतजा
रतमाराहिपा::अपामीत
जेस्माहपाअनप॰नाराए
ए:नक्षमक्तुरूप:प्परमापा
अनप॰माहिअरमोप:हमे
स्मपतारमाहि:अपामीत
जेमामहा:अपामीतजेमा
फारम:अपामीतजेमापा
रा:अपामातजेमानरमाहि
:अपामीतजेमीपामन:अ
पामातजेमी फारसराम:

अपाजीतमश्रीराजः अपाजी
तमश्रीकरसनः अपाजीत
मेश्रीबोधः अपाजीतमे
श्री नकलंकीः नरजनाहस
जा = अपतारः हकमोलाना
आहामोरतजा = अलीः पस
मेदीः नबीनूरसतगोरः न
र = अजलामसाहाः तमेजपृ
नाहातारखोजः अपाजीतम
सृजाबजोजाबेः सृत्रपस
त्रनाहोपाकराबेः ततमेकु

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

फरीजः ऐजपने आपाग
पनदूरफरीजः ऐजपने
लमयाराआनापतेरीज
नीजः तजेदानदे आजः या
दआछेजः ऐयदाजगीज
गनाधनेगारः आहियघ
नायगाअणमारः अपाज
जतजेनेफनजरधरीः अ
दारधारजाहि अजपाफ
फरीजः जायहेपनाधणी
ः अताफरीऐजपतणीः अ
तगारघजाजआहः नर

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

जहुआफा:सतगोरपीरकु

प्यारहीन:सतगोरपीरअ

दूरहीन:सतगोरपीरआ

हिप्पहीन:सतगोरपीरन

आरहीन:सतगोरपीरअ

जअहीन:सतगोरपीरअ

लाफिाहीन:नर=असलाम

आफा:नर=अलीनरीजन

ताज:नव्यानूरसतगोरत

जारीहायाः:अपाजातजे

जपनजेरकुरो:फनलकु

[illegible]

हीनःपीरअजाअहीनःपा
रनआरहनःपीरआहीप्प
हीनःपीरओाहरहीनःपा
फुप्पारहीनःअतगोारछेंना
जआाहाःनरअाजाजाज
हआाहाःहअजाअपतार
ःजाजाअछेंजाजनाआाआ
अःतजेफुप्पुतपरोःछजाज
हअनःहाआनःआपजार
रतनाआताःअफुतप्पाप्पा

फातमानीः आआमतमेन्
मूलचंदरोःतमे अपतारपा
त्रःमेमटनाधणीछेःतमारा
नामनूरनोहेःआतीःतमारा
पगपापनोहेःआतीःए
मपनाधनामचंदीःएम
पनी आडापाडामेहेजो
चंदरोःहेमहेमलोहरचरो
ःतणधाटनापधनचरोःमा
पनधाटापारहितारोःअन

पनीपारेजपनेतारेःजर
तपेपुनेआआणपीइठा
डेःरपाजरुजनेजडेपे
आडेःओतजजपनीआ
आपुरेःहेअतीअेतअत
मोअेनीःफोलफाएजनाप
रपारनाःएजपनेइतारेपा
रःतजेजपनातारणमारः
तजेनाराएण.तजेनरीज
नःतजेआलप्यःतजेआला
ःतजेरामनः.तजेरेजानः

तमे आद्पा अनप: नाराए
ए: नपजपी नप्पा नूरअत
गोर: नर=अआपाजआहा
दातार: अतगोरअपाहाद
न: अतगोरअजअदीन:
ना=पाआआ: अतगोरआह
पदीनना=आआआ: अतगो
रओादरदीनना=आआआ:
अतगोरफुपारदीन ना=
आआ: अतगोरधजाजआहा
ना=आआआ: नर=अदुजा

हामदआहानी आआअः
अपाजातजेकफटकरेःतजे
आहिमआलतानःजेइप
ना
आरमहेअपानःअत्र
हेपेअेराम्फरेकोद्दाजकान
ःते आपापआइमपोलता
नःजेफोगुजरमरेकोद्दाठा
जःते आपापआगरजता
गाजःतेनूपात्रमरजाएद
रचजाजआहानाजःजेक

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ॥ ४८ ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

realpatidar.com

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ॥ ॥

[illegible]
[illegible]
॥ [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

रअलाजाहाजदआहाःअ
तगोरपारपुयारदीनःसत
गोरपारओदरदीनःसतगो
रपारआहियदीनःसतगो
रपारनआरदीनःसतगोर
पीरअजअदीनःसतगोर
पारअलाहिदीनःनरअ
अलाजआहाःनरअला
जाहाजदआहाःनरीनन
नाजःनयानूरसतगोरत

रतमारा दीदाराःअपामातेमे
सूरीजनन्हारःप्यरमाकोल
आपतारःआदपाआनप
फ्राणजनरूपःआदनरीजन
णफुःअनेजूजमाम्रूपः
तमाराजूरःतमाराजूर
ःतमेगतअसरमाछीमर
पूरःफोलगतनाघनाफुरे।
दूरःतमारानामःतमाराठा
मःतमाराफरमानःजोआ।

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

दीपा॥आशी॥अमारीःप्यर
फतअपाएततमारीःपेघे
ना॥ओनेपेला॥आपेःअ
तआहिनानूरफाडःनपावे।
॥अनपानापःतमेहितारे।
प्यदानापापःनप्यानूरअ
तगोरःनर॥अअलामआहि।
ःनरननफनफोःतमारीन
घतेःतमारीदअतरेःनूमन
प्यदारपेअरःनरनारीप्य।
नगोपानानोःधानानीअ।

नीफ्रुफ्रूलफ्ररेः हेपपरआ
ह॰नारे नीफ्रुफ्रूलफ्ररेः अत
गौरधीभाभआहाः नरअ
लीभाहाभदआहाः हफ्र
लाएलाहा॰एललाहाः भा
हाभदररसूललाहाः॥५०॥

24 हीपाप्यालफ्रनेनाभफ्राफ्र
णनीधेः फरभानजी॥प्यस
भलाहररेहेभाननररहा
ःअतगौरपात्रप्यरभाः एहर

ईमामआहाः=आदपास

नप·नरीजनाःनर=आला

मामिदआहाःअतगार

पारफ्यारदीनःअतगा

रपारओदरदीनःअतगा

रपारआहिमदीनःअतगा

रपारनआरदीनःअतगा

रपारअमआदीनःअतगा

रपारअलाहिदीनःमर=आ

अलामआहाःनर=आला

नरीजननामःनर्यानूर

सतगोरतमारीदोपाः=आद
नरजनदधधोंकारःजपपरु
नासूरीजनदफारःप्यरमाप
याःपाअनपपायाःमाहि
अरपायाःश्रीमछनीपा
श्रीॐकारजनापायाः
याःश्रीवाराहनीपायाःश्री
नरआधनीपायाःश्रीपाम
ननीपायाःश्रीपरसराम
नीपायाःश्रीरामनीपाया
ःश्रीकृरसनानीपायाःश्रीबो
धनीपायाःश्रीनकलंकीनी

राऐणनापायाः हक्फजोलो
नाआहा·जोरतजा = फालो
अतगीर
नापायाः नप्यी नूर = प्राआ
लाजआहाः पारानाजरद
:अतगीरआलाहाहीनःपा
रआजआहीनःपीरनआर
हीनःपीरआहिप्याहीनःप
रओहदरहीनःपारफपारही
नःपारईजाजआहाःनरग
हाजदआहाः अंत्रअंत्रहा
सेनीःफोलफाऐजनीपू

पारःनाथूदेप॰नरपेनम

ठेःधूआरफाखेत्रमाहेःह

आदसमाआपतारःनर

नननकनाफानाराएणः

पात्रधारमाःगोरनरहरीः

आपेरपेदनाफाकामणने

ःनापनाफाकुणधाहीएः

तेनापनाफाआनूराणी

पाएःतेनापआजरापरने

एःतेनापफेरापेछूटेःआ

रआआणाखेठेःमनने

आजारीःगालअप्तोतजारि।
ःएजपनेकुजाजाकुआरन
ःओाप्रतजाराजोःतेत्रीअ
करीडीनीजिप्तोजापीः
आइसुरनतारःपपनपा
एताःनजाआजाअःआअ
रकुजपरप्रतःनपकुजन।
गःआारकुजजेघःआारज
णःआारपाणःआारपेइःआ
रकुतपःतेत्रीअकरीडीना

पूरीआनाः त्री लोक नी द्दी
पाआः अपापात मारे नाअ
फाकुणाः तमारे करमे द्दरमे
एजपनेअतपथ तमारे कर
मे द्दरमे पारगापाएराआः
गारनारनो द्दार आपीः
एजपनाधनाधाकुओः आप
रापरपापाअ आपीः एज
पज गाज गतमारे छेः ए
जपनाआतातमने छेः एज
पंने पाकु पापनकु रेः अत

[illegible]

रआहेरदीनःअतगोरपीर
आहिपदीनःअतगोरपीरन
आरदीनःअतगोरपीअजअ
मंअंदीनःअतगोरपीरआला
हिदीनःनरअअलाजआहि
ःनरअलीनरीननानाजःन
पीनूरअतगोरतजारीदीपा
ःगोरपाआःनरपाआःहदरअ
कतीपाआःपरजा·पीअनप
·जाहिअरपाआःफरजानन
राएणानूःअतपाआःदतपा

या:पेहपाया:=आद=आल
अतपथनीपाया:पेहपअप
रपारनीपाया:नपेम्रप
रपजानीपाया:येपाअजो
लकनीपाया:=अअटकपप
रप्पतनीपाया:नपकुमनाग
नीपाया:आतआफिरनीपा
या:नपअेनपाणनहीफिनी
नीपाया:आरपाण.आरप
णनीपाया:आरपेह.आरउ
तेपनीपाया:=अठारआर

पनअपतीनीपायाः याहा
सूरजनीपायाः नपलक्षता
शानीपायाः अग्निदमपनन नाहे
पलोक्ननीपायाः पपनपाणी
नीपायाः आगनस्तेजः आन
देपनीपायाः धरती आका
सनीपायाः धधोकार नाहे
करणकलफनीपायाः जड
पहुणनालीगनीपायाः छ
उछेहानीपायाः अतदृतन्म
नीपायाः अतीजती नीपा

२२५०२८८

ःअतोक्ररेणीनीपाया:अ
ऽआठतीरथनीपाया:नव
नाथ:चोराशीसधनापा
या:अठासीसेत्रदुष्म
ष्टिनीपाया:एकलाखएक
हजार:पारपेगाम्बरनीपा
या:नवाणुक्रोडजामा
नीपाया:छपनक्रोडजी
वानीपाया:सत्रीसक्रोड
देवनरनीपाया:पामक्रो

२

डीसूपरेलालनापायाः
सातक्रोडीकरीसहनाप
याःनवक्रोडीललेरल
नापायाःपायपाउपना
पायाःपारक्रोडीकजप
कुंअरनापायाःक्रोलर
येअर·गतगागनापाया
:जलालूआपरनापाया
:सोसठलालदेपाछिना
पायाःअनतक्रोडीना
पीरहसनसाहानापायाः

अन्नअन्न हाअनोः कोलक।
ऐपनापरपारनापायाः
आदद्निनाद्ः अक्कगरंघर
पथापीः सतगोरिकोद्धोपा
सतारः आदसतपपनीप।
पनाकरीः पिदपअतीअ
पाहरीः पापमोकरादेम।
डाघरमः रमेअरकपना
क्षितारकरमः पेलाकरम।
पेदनेपाणः पछअरना।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ॥ ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

मीतमेकरेकेपृतेःनाएंड्रा
मेटीअः आनरसतगोर
नूरः नेमनूरेमनीआः
तेनेआपागपननापेरा
रमीआःकआनमीःमे
पअमरःअमरापरमाम
ःसतगोरमनेःआहाकाद्दद्दा
रः नोपदानोकरणीसा
रःअ आसीनचमकीनार
एणः अलमनरीननाः

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ॥ ५३ ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

तमारोदीपाःअपाजातमे
आदनरीजनाःनाराएण
नकलंकी·आरप्यातूपःत्र
णजूरतनाएकअरूपःअ
दपोरसधोःअकुडारःतमे
अेअटनासूरीजनदृारेः
छेद्वीर्धडनेरबोसूसारःत्र
णजूरतनोएकपायारःअ
तअरगोअेकाकुडारःपूंगा
तकुंगालअयरायारःअ

रदक·मरत·नेपातालेः नले
पले·नेपरप्यतः प्येरप्यार
ने·पाबुर·मगामः गामश्री
मनेः मूतः नगारः नपपमउ
नेः योपा अपोलेफुः ईफुपा
अपमरमउः मा॥आपसद
रातमेरपीः॥आ। अणुरतगा
अणाघटपाटः ईफुमूरतत्र
णाहिपमाः फुमआमाहि
फुमाधरीः अपाला [illegible]

[illegible]

ररहीमः सतगोरपात्रप
रमाःऐदरछामामआहाः
आदुपीआनप॰नरीलनाः
नरआलोमाहामदआहाः
सतगोरपीरकपारदीन
ःसतगोरपीरओदरदीन
ःसतगोरपीर[illegible]प्पदी
नःसतगोरपीरनआरदी
नःसतगोरपीरसमाअदी
नःसतगोरपीरअलाहदी

नःनरञअलामआहाःन
रञअलीमाहामदआहाःन
रीजननामःनप्पानूरअत
गारतमारोहीपाःपरभम
ञपादनरीजनाञअकुकार
ःञअकुकारपादधीकारःत
मेअरनानूरतयारःतमेअ
अरनानूरीजनहारःतमे
कोधाएदपामतारःअप
मातमेधराञअंपतारःञ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

realpatidar.com

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

हाः जाहाजदूररसूललोहिः

॥५५॥

दापापूरम नेलोर्इ दितारा

नोछेआपमरजानजो ॥पम

जलाहनररेहेजाननररहा

जःअतगोरपात्रपमरजाः

एदूरर्इजाजआहाः आदू

पीअ.रप.नरीजनाःनर

अलोजाहाजदूआहा.त

ोः पीरपाकु.नूर

पाकः नरजन पाकः नारा
यण पाकः पायतन पाकः
आततन पाकः यारहेजो
अजन पाकः होपाहेथजाम
पाकः तजातूनाज पाकः त
जातूठाज पाकः तजाराना
जनूरनेः परतापेफराप
हापाकः जजाअकेआप
कः पपन पाणी पाकः आ
दसूरन पाकः तारा
अआटफज परपत पाकः

नपक्षनागपाकः आर
क्षेजेघपाकः आतअग
दरपाकः नपअेनपाक्षन
दीक्षपाकः तमारानाजनू
रनेः परतापेकरानेः प्यहा
पाकः नेअेनअेन हाअेना
पाकः अडअठतारथे पा
कः नपाक्षकरोडनाप्या
पाकः छपनकरोडजेघा
पाकः प्यत्रीअकरोडक्षेन

रपाकुःतेत्रीअकुरोडीहेपता।
पाकुःअनतकुरोडाअःपा
रहअनआहापाकुःतपा
रीपापानेपरतापेकरा
नेःपहापाकुःनूरनीछा
टेकुरीनेपहापाकुःअ
तगोरछजाजआहाःनर
अजाजाहाजदआहाःा
कुलाएलाहाःएललाहेः
जाहाजदररअलल्लाहेः।

28

॥५६॥

द्वापारमेंअरनेजोठेःनूरनी

छारनाप्पानीछेः॥पनरमा

नजा॥प्पअगलानररेहमा

ननररहीमःसतगोरपात्र

प्परमाःऐद्दरर्छेमाजआहा

ःआद्दपाअनपःनरीजनाः

नरअलीमाहमद्दआहात

मारीद्वीपाःअपरपेद्वडावे

जपाआःपारसाहानूराआ

परडाआःअपलआप्प

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

॥५७॥
दोपाजप्पानेपापप्पाघा
नीद्धेःपकरपानला॥प्पअ
पाला॥मरनेमपाननरनहा
पःअतगोरपात्रप्परपाः
ऐदरर्छपापआमाः॥आदपा
अनप॰नरीनना॥नरप्प
लापाम॥पदआमाःतपा
रादोपाःातपेदेपनरनि
ननराक्राःनक्र लक्राना
राएणःदअपो॥पपतारः

ध्अपरन गोन ग·नाथ्परमा

न:परमपापमनाछ्रटना

मा:अपतपातामःनेएकपा

अमरमरनाथ्दथ्थाद्याःते

नूपापमेथ्दथ्थाद्याःमरमा

·मीअनप·माहिअर:कमम

माहिकमाधरीमेठाःतेनूर

छ्रटनाम्दःहिरा=मालना

हिअराना:परीदेपानाराम

:=अकुकार=मालेथ्थाद्अ:

पतामेदेपताःनमा=अकु।

अ:पवनपाणी:आदसूरज
तारा:गपतीपरगटी:कुम
जागीब्रमा:आणीवीष्ना
ए:वीषोईनूरनापाअना
कुरे:तेजपनाआआपुरो
:आदपुरखजाएघटपाप
आ:ओदअनापफेरा
र्ष:अनतरूपेअलखकाद्य
रकरतारनूरतओाई:अत
गोरर्षजाजआहा:नरअ
लाजाहाजदआहा::हा

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

हीयाःअतगोरपारकुप्पा
रहीनःअतगोरपारसोहृ
रहीनःअतगोरपीरसोहि
ष्पहीनःअतगोरपारनसा
रहीनःअतगोरपीरसाम
सहीनःअतगोरुपारअला
हिहीनःनरअअलाजसा
हाःनरअलानरीजनना
जःनप्पानूरअतगोर[illegible]ा
तीहेयाःअकुआरअन
जोःश्रीनफुलफरनाराणः
जनहेतेप्पाद्दालप्पाकुमेर

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

परपाअगाः • नेनरनूमान
तेःनापूनतेःओनरनाएतेः
घोरअघारेःतेनपनपे
नप•पूरतेसेअपानीःअ
तगोरओदरदीनआयाःपे
नाकरतानेगनायाररूप
ःनघ•कघ•नारा•नानरअ।
घःत्रेतानेगनात्रणरूपः
पानःपतरअरानःनारा
नःदोपापरनेगनापेरू
पःकुरअनःनीपोघःआ

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

ना:तेफआयाआतातेण
हे:ऐपापानफाऐपयान:
गोरफपारदीनफपते:पा
रओहरदीऔतापाया:श्री
धरतेधंरंतेणपआया:गग
नजफनजा:ञजारअहो
ऐ:ताहानरीणनफापाआ
:सओगाराहोऐते:मरम
रपीऐ:नोगाराणऐ:हठ
तलाआ:अतगोरछजाम
आहा:नरञलाजाहा

[illegible]

[illegible]

[illegible] ॥ ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
॥५०॥

हापाचाला=अंत्ये पात्रनाः
अणानेपैमपाक्षि ठः फरमा
नआ।।प्यअमाला हररेहेमा
गनररहीमः अतगोरपात्र
प्यरमाः ऐहरछेमालआ
हाः=आदपाअनप.नरीन
नाः नर=आलापाहामदअ
हा.तमानीहेपाः गोरहरीम
द.मतूरपेहीप्यरमाः मो
हाताःदेपमाहिअररः=आन
अदेपतपीः फुलअफुरता

रःमारनेगनादेप=ओधु
रःपामआतनपपारःत्रे
त्रीअकरोडी॰=अनतआरः
तमेहोअनापात्र॰होपान
पादआजः=आपजगतअ
धोअनूपःपापपरआदः
नाआनानारेनेःपाए
मेमानीःदआदआकरत:
दमडोःदाकडो॰पानफुल॰
फाफ॰फराफःःअनपाणा
ःआक॰पाकःरअ॰कअःन
करपदगीःतमेकपुछक

रीःआहिपतमारीपातिहा
रीःअनेआआदिपतमा
रीःअखेपात्रअखूटफरी
ःअपामीतजेगतनमातमा
ःनूरनाआनीएपरपरीः
अनपूरणअनपूरीःधा
पूरीगाणेअःपाणीपूरीप
रमाःरधअऔपोपाहिअ
सःमाहिपःजोजनपीरआमा
ताजपानीःआदअफतीग
अःपरमानापाअःर

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

૩૨

[illegible]

आहेज·नबीरसूलेःतजही
आ·थहेथाआःफरमान
·थयअजालाःसाहेबथकुपोया
आःअतगौरछजाजसाहेः
ःनरआलोजासाहोःहेक
लोएलाहो·एलेलोहेःजा
होजहेररसूलेलोहेः॥५३॥

33

हेपाजानजातपरवारानें
हिठानाछेःाफरमानआाथ
अजलाहेररेहेजाननरर

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

णेगृनरमरु फ्राद्यांठांजःनै
आपापसाआंनगारमता
गाजःतेनूपात्रपरजाछे
दरछजाजसानाजःनेफु
रसेआनतफुरोडीनपूना
फुजःतेनूआदपाअनप
नाराणःनरआलोजाहा
जदसाहानाजःकरोप्यहा
नाजाअफेलआजानः
ललमयोरारासानाफेराटा
लोःतेत्रासफुरोडीनाजा

आवो:सतगोरछीजाम
आहा:नरआलीजाहाम
हआहा:॥हश्वलोएलोहा:
एलेलोहो:जाहाजहरर
सुलेलोहि: ॥ ६४ ॥

34 दीपायहरजानी:आसण
पईठानजणो:फरमाण
गायअजलोहररहेजान
ररकीज:सतगोरपात्रय

रमाःऐहरवीलालआहाःअ
हमाअनपः नरीजनाःनर
अलतालाहालहआहातमा
नीहीलाःम्यरफतरेहीमतः
आहाम्यआलाजतःअरज
हीलीहमारःअरजहोयह
रमागीरःतमेअतीहीनाअ
तराम्यजेःजतीहीनाजत
रमजेःनम्यानीहीमतना
:फरराराकानधरोःअम
रामारफरेःफाद्याधनाम्य

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] || [illegible] ||

दीपाम्रुरणनी॰ ऋाअणीअ
रदीफुरीनेःपत्रमाजापाव्यअ
मानाफ्ररररेहेमाननररफीम
ःअतगोरपात्रव्यरमाःऐदर
षमामआफाः ऋाद्दपीअन
प॰नरीननाः नर ऋअलीमा
फामदआफातमारीदीपाः
क्षिगताम्रुरण॰ ऋापिमतेमा
णः नरव्याजंतेनरमाफामद
आफानामः पडतेगापत्री ः
नपतपव्यव्यद्विपाऋाःत

पसूरनदेपतातमारीयर
णेः आः आः अपदेतेनपा
रः अपदेअतारः अपदेते
गूफारः अपेतेरकीमः अ
पदेतेकरीमः मारपीरमा
कामदेओफाएतः एटलोदो
पाणणो ओणोः हिनकुदोनकु
करामः अतगोरईमामअ
काः नर अनोमाकामदेआ
ः कफलोएलोफाः एतेलोहेः
माकामदेररजूललोकेगाऽऽ ॥

दोपाअरपेअपूरणछेःअ
जापतजपेः॥ ५५ ॥

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

नूरनपूपतके: पेगापरपे
॰आपाताप: केनपूपतरे
अेद: धपाजनूरनकजक:
नाराएण नरीजन: ओत
जनकजक: अपतपरज
उ: तोहानेकतें अपाजा
हिनाद अपागात: तजेअर
जतः अपतपाताजगा: जोर
नपूपत: जछजना अरज
नगा: जोरनपूपत: उारज
जना अरजनगा: जोरनपू

पतःपीराजनी॥अरजन
गःजोरनप्पृपतःनरसा
ईजनी॥अरजनगःजोरन
प्पृपतःपीपनजनी॥अरज
नगःजोरनप्पृपतःफरस
रामजनी॥अरजनगःजो
रनप्पृपतःरामजनी॥अ
रजनगःजोरनप्पृपतः
फरसनजनी॥अरजनगः
जोरनप्पृपतःप्पृधजनी
॥अरजनगःजोरनप्पृप

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

आरगाधरगः धरमञ्मोत
मगः इमाम हसनः इमा
म होसेनः इमाम जेन
आलाबदीनः इमाम मा
महबाकरः इमाम जाफ
रसादीकः इमाम इसमा
इलः इमाम नूरसतगोरः
इमाम इसमाइलसाहा
नाः अइदपीर इमाम सा
हाः॥ हकलोऐलाहाऐल

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

तेपारओदरहीनः पारकुष्ट
रहीनःअतगोरपात्रप्यार
जाःऐदरईजाजआहाःन
रअलोजाहाजदआहाः
हकलाऐलाहाःऐललाहे
ःजाहाजदररसूललहेः
जोरनप्यूपतनीपाआअ
तःअपूरणछेः॥ ॥

देपारतननाजूलप्यछेः॥
रतनीदेपाछेः॥ ॥

जाकुः ध=आआहाओपा
=आः ध=पाआहानेपा
=आः ध=पारतनः ध=पा
रतनः ध=पारतनः ध=पा
रतनः ध=पारतनः ध=पा
रतनः ध=पारतः॥ हकु
लाएलाहा ऐललाहाः
जाबिंदररसूललाहेः॥

ऐ दोपारतनाजानी प्याका
=पतदोः॥

तानो जनहता प्यानिभूनाऐ
प्याधीऐ: तो मानि आनिपु
रे तो: पेरपानो ढिपर जा
पानेः घनाप्यफु ओ: फोल
प्यालाद फेपाऐ: आनि प्यते
नेफु आटजानि पा ढिगारे:
ऐहीपापडे: तपा आजमे
: तनेघा जो तीरलागेन
ही: प्यदुफु प्यादुलागे नहा
: पाणा तपा चगानीलापे
नहा: आनि प्यफरे तो: ओ

अहनारप्यलोद्विलोपेनहो
:जनन्हूत·उाप्रेणःतपाप्र
जणालोपेनहीःअलेमा
नपेगाप्यर एंहोपापार
:१:एंकुपार पडतां:तेपाटे
हो
एंपोनीप्यरकुतपा:होल
तप्पूजरकुपाजाछेः एंहो
पाहरोजः पार एं१:प
डाएं:तोदूप्यअरपेलाएं:
जेकुाजआहप्यपाअेपी
जागा:तआहप्यपूरेपाडः

[illegible]

[illegible]

ए: ऐहिपा।फिरे।ले पार:७॥
सातपारपडे: हन आतल
गी:७॥आडेना।न्ते:तोआ
हिप्प आआनापरे: तेहो
अतीहोपानोऐ: पनीको।
फहीआपाल: आपणने
आलारहेतोहोऐ: फइक
होप्पहेतोहोऐ: आपण
पीरछसपको ऐनहो:
तोतेनानोपानो नछे आ
तेफरी नो: फागापवेपर

पूतप्नूफरीनेः ञअनेऐहो
पाक्षरीजपारआतःशा
तेहनऐफपाआजगाःरथा
पडीनेपूतपाद्विपरफुफ
नाप्ताऐःतेहअजनत्ररत
आधारपाऐःदूरहपेपा
ऐःःपपीञआपणाजनमा
जाणाऐःनेहअजननेग
छेफराऐःतेऐफागाप्लनः
पूतप्नूफहेहाऐःतोपाणी
आपिद्योछेनाप्पीऐःतोमा

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

तथा ≡ अंजरा ≡ ओः ≡ आगम
जाएः ताफतेकरा ने ≡ आवेः
हीआतथाएः नेकोएफनर
नेपम्प तेः पाटेजातामोरने
जोहाएतापारः ४२ पडा नेः
≡ अगा त्रिपरफुकनाम्येः ता
आहेप्परामेअहीः कोध्दने
हूअजनजाजाहाएः हाम
हेताहाएः तोरोजात्रनत्रामे
ः ३॥ ≡ अ ने नाद ≡ आजापारः
४६ ॥ करोजपडेः तोदअजन
दअजनाफरी नाअफेः

[illegible]

एःनाद्इअलोपारःरापडा
नेःअूपेःनेअपारेंलागेतेः
तेआाहिप्पदीप्पजागेअ
हीःनोंक्रोधनेनाअरएप
डुहाएःतेपारः१००।।पडे
तेआाहिप्पनाअरएटाप्ले
अहीःनोफेनेाााणअतेड
पाइआपोहिाएःतेपारः३।
पडानेनाछएःतेप्पोलप्प।
लोपोएःनोक्रोधनेजूडापे।
जतहीाएःपरगापनकुर

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

अनेअत अापेअली: नेके
जाणेजे: फुदालतपतेपाली:
तेआपारनेपेरे: फेदिआ
पेप्पालान लिछिए: तारेपे
लोपार: ७०॥ पडनेतेआ
लिप दालत अालि: फेपार
टलेअली: पप्पाजाटुअपन
अापफुपातफरतेलिए:
तेपार: १०॥ पडीएनत: ते
पातफरीअफेनली: दीनदणी
आपालि: दाअतीनाद अपलोणा:
नाद अपलोअपूरणछेअली:

अपत:१९॥३॥अपत ज्ञाेगा
णाआना।पर ज्ञाे:पर आत्री जो
त्रा:जाआने ठ:पेहमान ने:
पार प्योह्य पार॥नेहनमो
पडीपूरा घई छे: तेगाभ श्री
नेत्रानी छे: ताम्रो।पडी जो
प्पीनीरजो:आपजो ज्ञाणी:
नाछे तेतजे अर्धकरी नेजाण
ने:तेप्पतगाजो प्पा नरजो:
पातेजो ज्ञाणा॥ते ने पापो
अतगाजा।परतनती तेजो।
ईने छतारी छे॰

realpatidar.com

फरमन जो जाम मव ररेमनर० आमा
पेकुकुठपे १ ररकु।:घुमारे।कुरी नन
तमा भीर जावा१।:पोप्रा प्रोग आगवा
प्रेजदा नाघर जाघु।:१२) रे२२ कुम जाघ
घुमे टेमा। घेम टा जाघु।:। या१ उमप्रा पा
उ जाघु।:मारेउमप्रा काफा जाघु।:।
दे जे उमफ़ा न जर जाघु।:। यकुमकुमा
रमोना जेटो।:।योर जाघु यप्रार जाघु:
जूत जाघु पप्रा र जाघु।:दे ए जाघु दा
प्रा ए जाघु।:।रा व जाघु त्री ओ जाघु:
ओकु त्री ओ जाघु।:रेगर) आ पीर जाघ
मारा जाघा कुटे टे जावा आदमरो
न दादे टे।:।प्रोप्रा प्रोगा वा जेप्रा कुमर
जेवा या रुकेटो:मारे।माप्पर योप्रप
रेम०:आ।१ कक्ष एजे बेबा ममदर
पाकु रमप्रो



